

Registered Post

From,

~~Ramesh Kumar (Malviya),~~
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature At
Allahabad.

To,

Sri Sanjai Kumar Pathak,
H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex. ACJM, Ghaziabad,
R/o I-401, Vivek Vihar, Sector-82,
Noida - 201304.

No. 12402 /IV-3226 /Admin A-1 Section

Dated :August, 17th 2016

Subject: Payment of Rs.3,99,144/- in respect of Medical reimbursement claim amounting Rs.5,52,471/- & Rs.7,46,673/- of Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad.

Sir,

with reference to your letter dated 04.03.2016, on the above subject, I am sending herewith copy of letter No. 932/D.J./Ghaziabad dated 31.05.2016 and to say that vide said letter, the District Judge, Ghaziabad has informed that payment of Rs.3,99,144/- has already been made to you in respect of Medical Reimbursement Claims amounting Rs.5,52,471/- & Rs.7,46,673/-, after adjusting already sanctioned medical advance amounting Rs.9,00,000/-.

Kindly acknowledge hereby communicated information.

Enclosure:

Copy of letter No. 932/D.J./Ghaziabad
dated 31.05.2016

Yours faithfully,

DR(M)

Vide below placed letter, Ghaziabad has sent information regarding current status with respect of payment of aforesaid H.R.C. In this regard, may kindly be instant draft & issue?

Sanjai Pathak

8/8/16 (50)

ms
09/08/16 AR.

Sanjai Pathak
11.8.16

Deputy Registrar

19/5-
6-16
20/11/16
प्रेषक,

12/5
28-6-16
6.6.16
30

11893

3226
200

16/11/16

18-7-16

u-8-16

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

सेवा में,
उपनिबन्धक(एम)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

5634
13/6/16

पत्रांक 932 /डी0जे0 /गाजियाबाद

दिनांक 31.5.2016

विषय : स्व. शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अंकन 5,67,307/- एवं 7,46,673/- के भुगतान की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में

महोदय,

उक्त के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्र संख्या 6705/iv-3226/Admin A-1 Section Dated 05-05-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त विषय के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारी/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अक्ट) गाजियाबाद की आख्या दिनांकित 24.05.2016 के अनुसार अवगत कराना है कि शासन के स्वीकृति पत्र संख्या 551/दो-4-2011-53(4)/2007 दिनांक 08.09.2011 एवं पत्र संख्या 12/दो-4-16-53(4)/2007 दिनांक 10.02.2016 के अनुपालन में स्व. शिखा पाठक की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अंकन 5,52,471 का सम्पूर्ण धनराशि उन्हें पूर्व में स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम 9,00,000/- के सापेक्ष समायोजित करके मूल पत्रावली वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निस्तारण हेतु प्रेषित की जा चुकी है। तथा शासन के स्वीकृति पत्र संख्या 3344/दो-4-2011-53(4)/2007 दिनांक 14.05.2012 एवं पत्र संख्या 12/दो-4-16-53(4)/2007 दिनांक 10.02.2016 के अनुपालन में स्व. शिखा पाठक की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अंकन 7,46,673/- में से अंकन 3,47,529/- का समायोजन करके शेष धनराशि अंकन 3,99,144/- का भुगतान स्व. शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के पति श्री संजय कुमार पाठक को किया जा चुका है।

संलग्नक : उपरोक्त अनुसार

2

DRM
(w-04)
28 JUN 2016

G.O. Adm H/A
2016
D.R. CM

Kumar Pranti

भवदीय
31.5.16
जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad

From,

Ramesh Kumar (Malviya),
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature At
Allahabad.

To,

The District Judge,
Ghaziabad.

198 Subject: Medical reimbursement claim of Late Smt. Shikha Pathak, the then
ACJM, Ghaziabad.

No. 6705 / IV-3226 / Admin A-1 Section

/ Dated : 05-05-2016

Sir,

While enclosing a copy of letter dated 04.03.2016 of Sri Sanjai Kumar Pathak, H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad, on the above subject, I have to say that as per the information received from Sri Pathak, the matter regarding payments of medical reimbursement claim amounting to Rs. 05,67,307.00 and Rs. 7,46,673/- is still pending, for payment or necessary sanction.

I, therefore, request you kindly to inform the current status with regard to the payments against medical reimbursement claim of Late Smt. Shikha Pathak for necessary sanction.

The matter may please be treated as most urgent.

Encl. As above

1. Copy of letter dated 04.03.2016 of Sri Sanjai Kumar Pathak H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad .

Yours faithfully

h2 - 15
20/05/16

Deputy Registrar(M)

199 No. 6706 / IV-3226 / Admin A-1 Section

/ Dated : 05-05-2016

Copy forwarded for information to Sri Sanjai Kumar Pathak H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad, R/o I-401, Vivek Vihar, Sector-82, Noida - 201304

h2 - 15
20/05/16
Deputy Registrar(M)

S.O. (Admin. AI) / D.R. (M):-

Kindly see the letter of Sri Sanjai Kumar Pathak, H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad dated 04.03.2016 and may like to issue?

h2 - 15
20/05/16
22/05

[Signature]

372

SP 84577
10-03-16
Santhal
2-4-16
Forced page

REG-30

Reg. No.	6784
File No.	IV/3226
Social No.	197

22/04/16
13/4/16
16/4/16

From,
Sanjai Kumar Pathak
401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

04.03.2016

To,
The Registrar General
High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad

Subject: medical bill Reimbursement which is pending since 2011.

Most Respected Sir,

My wife Shikha Pathak, the then ACJM-VII, Ghaziabad passed away due to blood cancer on 07.03.2011. Since 2011, despite completion of every formality for reimbursement of medical expenses on her treatment, the reimbursement has not been made so far.

at
S.O. Adm. U/A

After a marathon effort, the reimbursement claim has been processed and approval for payment in the financial year 2015-16 has been granted by the State Government vide letter no. 12/two-4-2016-53(4)/2007 dated 10.02.2016 signed by Sri Ashok Kumar Srivastava (Special Secretary) and duly sent to the Hon'ble High Court and the District Judge. **This approval will lapse on 31.03.2016.(Copy attached)**


D.R.M.
04/4/16



In pursuance to the said approval, the District Judge, Ghaziabad has sent request dated 22.02.2016 to the Hon'ble High Court for sanction of budget for the same.

I am compelled to write this letter because the said medical reimbursement file was closed in 2014 without any intimation to me due to lackadaisical attitude of some of the ministerial/clerical staff of the Ghaziabad District Court and the approval and sanctions granted by the State Government for reimbursement was permitted to be lapsed.

Kindly do the needful so that a timely sanction is granted and the reimbursement is settled and paid to me in the current Financial year.

(19)
JRM
(w)

Regards

Sanjai Kumar Pathak

From the mail of


22/04/16

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-12/दो-4-2016-53(4)/2007

343
19/1/16

लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2016

विषय- स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-511/दो-4-2011-53(4)/2007, दिनांक 08 सितम्बर, 2011 द्वारा स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की धर्मशाला कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, दिल्ली में दिनांक 28-12-2006 से 04-02-2007 तक करायी गयी चिकित्सा पर व्यय धनराशि रुपये-5,52,471/- तथा शासनादेश संख्या-3344/दो-4-2011-53(4)/2007, दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा श्रीमती शिखा पाठक की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08-06-2010 से 01-09-2010 तक करायी गयी चिकित्सा पर व्यय धनराशि रुपये-7,46,673/- की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में उप निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-297/IV-3226/एडमिन. ए-1 सेक्शन, दिनांक 06-01-2016 के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्गत अनाहरण प्रमाण-पत्र दिनांक 23-10-2015 उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त बिलों के भुगतान की अनुमति माँगी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी धनराशि रुपये-5,52,471/- एवं रुपये-7,46,673/- से सम्बन्धित बिलों के भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किये जाने की अनुमति वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रदान की जाती है। उक्त दावों से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-G(2)91/X/16, दिनांक 05-02-16 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या-12(1)/दो-4-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (3) कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
- (4) अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (5) श्री संजय कुमार पाठक, पति-स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आर0के0के0ए0-14, कोशाम्बी, गाजियाबाद।
- (6) गार्ड बुक।

Send it to O/C Account

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

District Judge
Ghaziabad

255

Page 30

From,

**S.S.Gautam ,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature At
Allahabad.**

To,

**The District Judge,
Ghaziabad.**

Ab

No.4598/IV-3226/Admin A-1 Section/

Dated : 15-03-2016

Subject: Regarding sanction of Medical Reimbursement claim of Late Smt. Shikha Pathak, the Ex-Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, amounting to Rs. 5,52,471.00/- and Rs. 7,46,673.00/- for the period from 28.12.2006 to 08.06.2007 and from 08.06.2010 to 01.09.2010.

Sir,

While sending a copy of G.O. 12/2-4-2016-53(4)/ 2007 dated 10.02.2016 addressed to you and copy endorsed to the court, on the above subject, I am to say that after adjusting all the advances already paid to Late Shikha Pathak, Ex-Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad against the medical expenses ensure the compliance of Government order dated 10.02.2016.

This matter may kindly be treated as most urgent.

Encl. : As above

Yours faithfully ,

S.S.Gautam
15.3.16

Deputy Registrar (M).

S.O. (Admin A-1) / D.R. (M) :-

May kindly see the G.O. dated 10.02.2016 and may like to issue with the approval of learned Sr. Registrar (Judicial) (Budget)?

Sr. Registrar (B)
May like to approve the draft?

S.S.Gautam
23.16
D.R. (M)

Draft approved

Sr Registrar (B)
03/03/16

S.O. (Admin A-1) *Hirani*
02/03/2016
(A.R.O.)

S.S.Gautam
02/03/16

29-1/16
TP-1

Ref: 90

स्पीड पोस्ट

संख्या-12/दो-4-2016-53(4)/2007

100

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2016

विषय:- स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-511/दो-4-2011-53(4)/2007, दिनांक 08 सितम्बर, 2011 द्वारा स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की धर्मशाला कैसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, दिल्ली में दिनांक 28-12-2006 से 04-02-2007 तक करायी गयी चिकित्सा पर व्यय धनराशि रुपये-5,52,471/- तथा शासनादेश संख्या-3344/दो-4-2011-53(4)/2007, दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा श्रीमती शिखा पाठक की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08-06-2010 से 01-09-2010 तक करायी गयी चिकित्सा पर व्यय धनराशि रुपये-7,46,673/- की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में उप निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-297/IV-3226/एडमिन. ए-1 सेक्शन, दिनांक 06-01-2016 के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्गत अनाहरण प्रमाण-पत्र दिनांक 23-10-2015 उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त बिलों के भुगतान की अनुमति माँगी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी धनराशि रुपये-5,52,471/- एवं रुपये-7,46,673/- से सम्बन्धित बिलों के भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किये जाने की अनुमति वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रदान की जाती है। उक्त दावों से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-G(2)91/X/16, दिनांक 05-02-16 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या-12(1)/दो-4-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (3) कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
- (4) अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (5) श्री संजय कुमार पाठक, पति-स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आर०के०के०ए०-14, कौशाम्बी, गाजियाबाद।
- (6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

Kom. Humani

16/03/16

16/03/16

24/2/16

638
S. R. M. A

D. R. M.
19-2-16

3

D. R. M.
(1000)

19 Feb 2016

Ref: 90

Reminder Ist

From,
**S.S.Gautam ,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature At
Allahabad.**

To,
**The Under Secretary,
Appointment Section - 4,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.**

No. **/IV-3226/Admin A-1 Section/**

Dated :

Subject: Regarding sanction of Medical Reimbursement claim of ~~your wife~~ Late Smt. Shikha Pathak, the Ex-Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, amounting to Rs. 5,52,471.00/- and Rs. 7,46,673.00/- for the period from 28.12.2006 to 08.06.2007 and from 08.06.2010 to 01.09.2010.

Sir,

I am inviting your kind attention to the court's letter no. 2621/ IV-3226/Admin A-1 Section , dated 11-02-2016 . On the above subject , I have to say that non payment certificate of the Treasury Officer Ghaziabad for medical reimbursement claim amounting to Rs. 5,52,471.00/- and Rs. 7,56,673.00/- of late Smt. Shikha Pathak has already been sent to you for issuing amended Government order but the same has still not been received .

I am therefore requesting kindly to obtain necessary orders of the Government in this regard and communicate the same to the court as early as possible.

Yours faithfully ,

Deputy Registrar (M).

No. **/IV-3226/ Admin A-1 Sec., dated :**


Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Sri R.K. Upadhyay , District and Session Judge Ghaziabad.
2. Shri. Sanjay Kumar Pathak, I-401, Vivek Vihar, Sector-82, Noida - 201304.
with reference to court's letter no. 2621/ IV-3226/Admin A-1 Section, dated 14-02-2016 .

Deputy Registrar (M)

S.O. (Admin - A1) / D.R. (M) :-

May like to issue reminder?


H. S. M.
26/02/2016.

8155
29-01-16

Sanjay
2-2-16
Total @ page

Ret 590
PS
02.02.16

2427
IV/3226
192

10/02/16
14.01.2016
9/2/16

22-2-16

933

From,
Sanjai Kumar Pathak
401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,
Sri R.K. Upadhyay ✓
The District and Sessions Judge, Ghaziabad
District Court Complex
Rajnagar, Ghaziabad

Subject: medical bill Reimbursement.

Most Respected Sir,

I am writing this letter to apprise you about the inordinate delay in the subject mentioned above. You are aware that my wife Shikha Pathak, the then ACJM-VII, Ghaziabad passed away due to blood cancer on 07.03.2011.

Since then, despite submission of all the medical bills including those which were submitted by my late wife during her life time, the reimbursement of medical expenditure has not been settled.

1128
S.O Admin M/A

You will be surprised to note that the said medical reimbursement file was closed in 2014 without any intimation to me because of the lackadaisical attitude of some of the ministerial/clerical staff of the Ghaziabad Court. Thereafter, pursuant to my written request, on the directions of the Hon'ble Allahabad High Court, the matter started moving.

DR(m)
01-2-16

Certain disturbing facts about the deliberate mishandling of the matter came to the light and disciplinary action was initiated against some concerned clerks by the then District Judge, Ghaziabad. However, I am not aware about the outcome of those proceedings. It was so disturbing to know that one of the medical bills of more than five lacs was sanctioned for disbursement by the Government but it was deliberately permitted to lapse.

I visited the Ghaziabad Court again for few days in 2014/2015 and the matter of reimbursement was put on the track with the sincere efforts of two judicial officers who were entrusted with the responsibility.

2
JRM
(10-02-16)

D.R.(M) JAN 2016
Letter addressed to
the Dist. Judge, Ghaziabad and copy
enclosed to the court, only for information.
may file?
28/02/16

Ref. no

I have completed all the formalities regarding medical reimbursement during my personal visits to the Ghaziabad Court. There are some bills which have to be approved and settled at the District Court level and some bills have been sent to the High Court.

I will appreciate if the process of reimbursement is followed up properly and expedited and the claim of medical reimbursement is settled in full and final in the current financial year.

Regards


Sanjai Kumar Pathak

✓ **CC: 1. The Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad**

129-20

Registered Post

From,

**S.S.Gautam
Deputy Registrar(M)
High Court of Judicature At
Allahabad**

To,

**Shri. Sanjay Kumar Pathak,
I-401, Vivek Vihar, Sector-82,
Noida - 201304**

193

No.262) /IV-3226/Admin A-1 Section/Dated : ~~January, 2016~~ 11-02-2016

Subject :Regarding Medical Reimbursement claim of your wife Late Smt. Shikha Pathak, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, amounting to Rs. 5,52,471.00 and Rs. 7,46,673.00 incurred in the Acute Myeloid Leukaemia(Blood Cancer) of her own.

Sir,

With reference to your letter dated 21.10.2015, on the above subject, I am to say that the payment of aforesaid medical reimbursement claims of your wife Late Smt. Shikha Pathak were sanctioned for the financial year 2011-12 and 2012-13 respectively, but due to some reasons the payment of the same could not be done by District Judge, Ghaziabad. For making the payment of the same from financial year 2015-16, the Government vide its G.O. No. 632/do-4-2015-53(4)/2007 dated 03.06.2015 had asked to send 'Non-Payment Certificate' of Rs.5,52,471.00 for the financial year 2011-12 and of Rs.7,46,673.00 for the financial year 2012-13 from the concerned Treasury Officer. The District Judge, Ghaziabad through his letter dated 29.10.2015 had submitted the 'Non-Payment Certificate' in compliance to the G.O. dated 03.06.2015 and vide Court's letter dated 06.01.2016 has forwarded the 'Non-Payment Certificate' to the Government requesting for approval of making the payment of the aforesaid medical reimbursement claims from the financial year 2015-16.

This is for your kind information.

Yours Faithfully,

S.S. Gautam
5.2.16
Deputy Registrar(M)

Registered Post

194

2 622 /IV-3226/Admin A-1 Section/Dated : ~~January, 2016~~ 11-02-2016

Copy forwarded for information to the District Judge, Ghaziabad .

S.S. Gautam
5.2.16
Deputy Registrar(M)

S.O (Admin A-1) / D.R. (M)
May kindly see below placed letter of Shri Sanjay Kumar Pathak, husband of Late Smt. Shikha Pathak and may like to issue? *D.R.*
05/02/16

S.S. Gautam
05/02/16

8210
04/11/15
Sanjal
28-11-15
Total - 2 page

Ref: go (2)

PS
30.11.15

From,
Sanjai Kumar Pathak
I-401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

17785
IV/3226
189
21.10.2015
31
8/11/15
PS
09/12/15
18-1-16

To,
The District Judge, Ghaziabad
District Court Complex
Rajnagar, Ghaziabad

Subject: medical bill Reimbursement.

Most Respected Sir,

You are aware that my wife Shikha Pathak, the then ACJM-VII, Ghaziabad passed away due to blood cancer on 07.03.2011.

Since then, despite submission of all the medical bills including those which were submitted by late wife during her life time, the reimbursement of medical expenditure has yet to be settled.

In 2014, I came to know that the reimbursement files have been closed for reasons not known to me. Therefore, I was constrained to write a letter to the Hon'ble Chief Justice, Allahabad High Court in 2014. Thereafter, certain disturbing facts about the callousness and deliberate mishandling of the matter came to the light and disciplinary action was initiated against some concerned clerks by the then District Judge, Ghaziabad. It was shocking to know that one of the medical bills of more than five lacs was sanctioned for disbursement by the Government but it was permitted to lapse.

I had to visit the Ghaziabad Court again for few days and the matter of reimbursement was put on the track with the sincere efforts of two judicial officers who were entrusted with the responsibility to put the matter in order by the then District Judge.

However, I do not have any information for more than five months about any further development in the matter. Sir, How many times am I expected to send reminders for settlement of medical reimbursement which is related to untimely demise of my wife?

4
27-11-15

(11)
P.S. B.R.
(w.c.d.)
A

Sr. Registrar (B)

11CR-4
26/11/15
Km. Deepali Raj
19.01.16

M
DR (Recd)

Sr Registrar (B)
22/11/15

SO Admin H/A
DR (M)
28.11.15

Ret: 90

I have completed all the formalities during my personal visits to the Ghaziabad Court.

I will appreciate if the process of reimbursement is followed up properly and expedited and the claim of medical reimbursement is settled in full and final before another year comes to an end.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

CC: 1. Hon'ble the Chief Justice, High Court of Judicature at Allahabad
2. The Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad

①

Key: 90
PS
30.11.15

17785
IV/3226
188
31
8/12/15
PS
09.12.15

From,
Sanjai Kumar Pathak
I-401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,
The District Judge, Ghaziabad
District Court Complex
Rajnagar, Ghaziabad

21.10.2015

8
18-1-16

Subject: medical bill Reimbursement .

Most Respected Sir,

You are aware that my wife Shikha Pathak, the then ACJM-VII, Ghaziabad passed away due to blood cancer on 07.03.2011.

Since then, despite submission of all the medical bills including those which were submitted by late wife during her life time, the reimbursement of medical expenditure has yet to be settled.

In 2014, I came to know that the reimbursement files have been closed for reasons not known to me. Therefore, I was constrained to write a letter to the Hon'ble Chief Justice, Allahabad High Court in 2014. Thereafter, certain disturbing facts about the callousness and deliberate mishandling of the matter came to the light and disciplinary action was initiated against some concerned clerks by the then District Judge, Ghaziabad. It was shocking to know that one of the medical bills of more than five lacs was sanctioned for disbursement by the Government but it was permitted to lapse.

I had to visit the Ghaziabad Court again for few days and the matter of reimbursement was put on the track with the sincere efforts of two judicial officers who were entrusted with the responsibility to put the matter in order by the then District Judge.

However, I do not have any information for more than five months about any further development in the matter. Sir, How many times am I expected to send reminders for settlement of medical reimbursement which is related to untimely demise of my wife?

Registrar General
Submitted

J.P.S.
Date.....24.11.....

J.P.S.

Km. Deepali Rnj

Sr. Registrar (B)

19.01.16

Call

JR/PS/DR/R-9
26/11/15

to
Mr Key (B)(B)
27/11/15

(1207)
Serial
28-11-15
Total-2 page

5
27/11/15

S.O Admin H/A
D.R (M)
28.11.15

Ref-90

I have completed all the formalities during my personal visits to the Ghaziabad Court.

I will appreciate if the process of reimbursement is followed up properly and expedited and the claim of medical reimbursement is settled in full and final before another year comes to an end.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

- ✓ CC: 1. Hon'ble the Chief Justice, High Court of Judicature at Allahabad
2. The Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad

Registered Post

From,

**S.S.Gautam
Deputy Registrar(M)
High Court of Judicature At
Allahabad**

To,

**The Under Secretary,
Appointment Section - 4
Government of Uttar Pradesh
Lucknow**

190

No. 297 /IV-3226/Admin A-1 Section/Dated : 06-01-2016
December, 2015

Subject :Regarding Non-payment Certificate for Medical Reimbursement of Late Smt. Shikha Pathak, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, amounting to Rs. 5,52,471.00 and Rs. 7,46,673.00 incurred in the Acute Myeloid Leukaemia(Blood Cancer) of her own .

Sir,

While enclosing herewith copy of letter No. 472/D.J./GZB dated 29.10.2015 of District Judge, Ghaziabad along-with Non-payment Certificate No. 1597 B.P.A./Nyayik/Kosh./2015-2016 dated 23.10.2015 of Chief Treasury Officer, Ghaziabad, on the above subject, I am directed to say that the District Judge, Ghaziabad has sent the above Non-payment Certificate for Medical Reimbursement amounting to Rs. 5,52,471.00 and Rs. 7,46,673.00 of Late Smt. Shikha Pathak for forwarding it to the Government in compliance to your G.O. No. 632/do-4-2015-53(4)/2007 dated 03.06.2015.

I am therefore recommending the proposal to kindly obtain necessary orders from the Government regarding approval for making payment of the Medical Rembursement Claims amounting Rs. 5,52,471.00 and Rs. 7,46,673.00 of Late Smt. Shikha Pathak, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad from the financial year 2015-16 under intimation to this Court.

Encl: As above

1. Copy of Letter No. 472/D.J./GZB dated 29.10.2015 of District Judge, Ghaziabad:
2. Non-payment Certificate No. 1597 B.P.A./Nyayik/Kosh/2015-2016 dated 23.10.2015 of Chief Treasury Officer, Ghaziabad.
3. Copy of aforesaid G.O. No. 632/do-4-2015-53(4)/2007 dated 03.06.2015
4. Original M.R.C. Of Late Smt. Shikha Pathak amounting to Rs. 5,52,471.00 and Rs.7,46,673.00 along-with all original bills/vouchers and other relevant papers.

Yours Faithfully,

S.S. Gautam
23/12/15

Deputy Registrar(M)

Registered Post

191

No. 298 /IV-3226/Admin A-1 Section/Dated : 06-01-2016
December, 2015

Copy forwarded for information to the District Judge, Ghaziabad .

S.S. Gautam
21/12/15
Deputy Registrar(M)

S.O.(Admin A-1)/D.R.(M)

May kindly see appraisal of Sr. Registrar (J) (B) dated 18/12/15, placed below and may like to issue?

DRG
19/12/15

S.S. Gautam
19/12/15

Serial
7-11-15
Encl-① page

07-11-15

From,

District Judge
Ghaziabad.

To

Shri S.S.Gautam,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at,
Allahabad.

AS
07/11/15

16960

IV/3226

187

JK
23/11/15

21/11/15

2-12-15

No. 472 /D.J. /GZB.

Dated: Ghaziabad, Oct 29th 2015

Sub: Regarding non-payment certificate for sanction of medical
Reimbursement claim of Late Shikha Pathak, the then ACJM,
Ghaziabad.

Sir,

In view of Hon'ble Courts letter no.12585/IV-3226/admin.(A-
T) Section, dated 22-09-2015, the desired non-payment certificate
from Treasury Officer, Ghaziabad in respect of reimbursement claim
amounting to Rs. 5,52,471/- and Rs. 7,46,673/- during the
corresponding financial year 2011-12 and 2012-13 has been received
and is enclosed herewith in original.

Therefore, kindly you are requested to place the aforesaid
certificate before Hon'ble Court for kind consideration.

Km. Deepali
03/10/15

21/10/15
District Judge
Ghaziabad
जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद

Ref: 90

रजिस्टर्ड

संख्या-632/दो-4-2015-53(4)/2007

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप निबन्धक (एम),
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

16.6.15

235

73226
182

10-9-15

lex
03/09/15-17/15

नियुक्त अनुभाग-4

लखनऊ: दिनंक 03 जून, 2015

विषय:- स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपचार पर व्यय की गयी धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4554/चार-3226/एडमिन-ए-1 सेक्शन, दिनांक 02-04-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की दिनांक 28-12-2006 से 04-02-2007 एवं दिनांक 08-06-2010 से 01-09-2010 तक करायी गयी चिकित्सा पर व्यय धनराशि क्रमशः रुपये-5,52,471/- एवं रुपये-7,46,673/- की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए प्रदान की गयी थी परन्तु सम्बन्धित बिलों का भुगतान उक्त वित्तीय वर्षों में नहीं हो सका। अतः उक्त स्वीकृत धनराशियों के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि रुपये-5,52,471/- के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सम्बन्धित कोषाधिकारी का अनाहरण प्रमाण-पत्र एवं उक्त धनराशि रुपये-7,46,673/- के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सम्बन्धित कोषाधिकारी का अनाहरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त दोनों चिकित्सा दावा मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव

9.6.15
527

9.6.15
Total (2) khatun
files

S.O. Admn H/A
DR(m)
09-6-15-

11
DR M
Khatun

Dr. Suseela
11/6/15

Ref: 90

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक :-

663/xv

दिनांक: 09, फरवरी 2015

विषय:

स्व0 श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि आवेदिका स्व0 श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं0 3344/दो-4-2011-53(4)/2007 दिनांकित 14.5.2012 से शासन द्वारा स्व0 श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर दि0 8.6.2010 से 1.9.2010 तक करायी गई चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष अंकन 7,46,673/-रु0 (सात लाख छयालिस हजार छः सौ तिहत्तर रु0 मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की गयी थी, जिस पर तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.05.2012 को प्रभारी अधिकारी, "बिल" को निर्देशित किया गया। आदेश दिनांक 19.05.2012 के पश्चात इस पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आहरित नहीं की जा सकी और शासन से स्वीकृति का आदेश निष्प्रभावी हो गया।

उक्त निष्प्रभावी स्वीकृति आदेश को वित्तीय वर्ष 2014-2015 में पुर्नजीवित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र पत्रांक 424 गाजियाबाद दिनांकित 22.09.2014 प्रेषित किया गया। तथा प्रभारी अधिकारी जिला जज गाजियाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को उक्त के सम्बन्ध में स्मरण पत्र पत्रांक 625 दिनांकित 03.01.2015 भी प्रेषित किया गया।


उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में "अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के पत्रांक संख्या 103/दो-4-2015-53 (4)/2017 लखनऊ, दिनांकित जनवरी, 2015 से चिकित्सा दावा मूलरूप में, महानिबन्धक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु", इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

अतः अनुरोध है कि स्व0 श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से सम्बन्धित मूल चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा कुल प्रपत्र- 228, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित करने हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

3

JR PI
Em D. Math

21 FEB 2015

भवदीय

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
9.2.15

पत्रांक -

दिनांक :-02-2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-श्री संजय कुमार पाठक पति स्व0 श्रीमति शिखा पाठक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निवासी - आई - 401

विवेक बिहार सैक्टर -82 नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)।

2- प्रशासनिक कार्यालय।

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

क,

जनपद न्यायाधीश,

गाजियाबाद।

सेवा में

महा-निबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

Ref: 90

24

पत्रांक - 659/XV

दिनांक :- 09 फरवरी 2015

विषय: स्व० श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आवेदिका स्व० श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं०-511/दो-4-2011-53(4)/2007 दिनांकित 8.9.2011 से शासन द्वारा स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर दि० 28.12.2006 से 07.2.2007 तक करायी गई चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष अंकन 5,52,471/-रु० (पांच लाख बावन हजार चार सौ इकहत्तर रु० मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिस पर माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.10.2011 को प्रभारी अधिकारी, "बिल" को निर्देशित किया गया। आदेश दिनांक 13.10.2011 के पश्चात इस पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-2012 में आहरित नहीं की जा सकी और शासन से स्वीकृति का आदेश निष्प्रभावी हो गया।

उक्त निष्प्रभावी स्वीकृति आदेश को वित्तीय वर्ष 2014-2015 में पुर्नजीवित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र पत्रांक 423 गाजियाबाद दिनांकित 22.09.2014 प्रेषित किया गया। तथा प्रभारी अधिकारी जिला जज, गाजियाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को उक्त के सम्बन्ध में स्मरण पत्र पत्रांक 624 दिनांकित 03.01.2015 भी प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में "अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के पत्रांक संख्या 103/दो-4-2015 -53 (4)/2017 लखनऊ, दिनांकित जनवरी, 2015 से चिकित्सा दावा मूलरूप में महानिबन्धक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु " इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

अतः अनुरोध है कि स्व० श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से सम्बन्धित मूल चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा कुल प्रपत्र- 243, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित करने हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

भवदीय,


जनपद न्यायाधीश, 9,2-15

गाजियाबाद।

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

पत्रांक -

दिनांक : फरवरी 2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-श्री संजय कुमार पाठक पति स्व० श्रीमति शिखा पाठक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निवासी - आई - 401 विवेक बिहार सैक्टर -82 नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)।

2- प्रशासनिक कार्यालय।

3-कार्यालय प्रति।

जनपद न्यायाधीश,

गाजियाबाद।

22nd

Registered Post

From,
S.S. Gautam
Deputy Registrar
High Court,
Allahabad.

To,
The District Judge,
Ghaziabad.

185 No. 12505/IV-3226/ Admin A-1 Sec., dated : September, 22nd, 2015

Subject: Regarding sanction of medical reimbursement claim of Late Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate, amounting to Rs.5,52,471/- and Rs.7,46,673/- for the period from 28.12.2006 to 04.02.2007 and 08.06.2010 to 01.09.2010.

Sir,

I am sending herewith a copy of Government letter no.-632/Two-4-2015-53(4)/2007 dated 03.06.2015, on the above subject, and to say that the medical reimbursement claim amounting to Rs.5,52,471/- and Rs.7,46,673/- was sanctioned to Late Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate in the financial year 2011-12 and 2012-13, but the same could not draw from the concerned treasury. Now Government has requested to send 'Non-Payment Certificate' of Rs.5,52,471/- for the financial year 2011-12 and of Rs.7,46,673/- for the financial year 2012-13, so that further action may be taken, by the Government.

I am therefore to request you kindly to obtain Non-Payment Certificate from Treasury Officer, Ghaziabad and to send the same to the Court, for onward transmission to the Government.

Encl: Copy of Government Letter dated 03.06.2015

Yours Faithfully

Banjan
16.9.15
Deputy Registrar

186 No. 12586/IV-3226/ Admin A-1 Sec., dated : September, 22nd, 2015.

Copy forwarded for information and necessary action to

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Government of U.P., Lucknow in continuation of Court's letter no.4554/IV-3226/ Admin A-1, Sec., dated 02.04.2015 .
2. The Treasury Officer, Ghaziabad alongwith copy of Government letter no.-632/Two-4-2015-53(4)/2007 dated 03.06.2015

Encl: As above

D.R.(M)

May kindly see the Government letter dated 03.06.2015 placed below & may like to issue?
Shukla

Banjan
14.9.15
Deputy Registrar

Banjan
14.9.15

768
08/05/15

Santal
11-5-15
W.O. Encl

Reg-53

Register No. 2241
File No. 2226
Serial No. 181

8
11.5-15

10-5-15

प्रेषक,
जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
सेवा में,
महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।
पत्रांक सं. 1937/XV दिनांक: 23.04.2015
विषय: स्व० श्रीमति शिखा पाठक से सम्बन्धित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में समेकित निष्कर्ष आख्या।

महोदय,
स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-७, गाजियाबाद, कैंसर बीमारी से ग्रस्त थी और उनका स्वर्गवास दिनांक ०७.०३.२०११ को हुआ था।
स्व० श्रीमति शिखा पाठक के उपचार सम्बन्धी निम्न ११ दावे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त हुए। वर्ष २००७ व २०१० के दावे स्वयं स्व० श्रीमति शिखा पाठक द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा वर्ष २०११ के दावे स्व० श्रीमति शिखा पाठक के पति श्री संजय कुमार पाठक द्वारा प्रस्तुत किये गये। सभी दावों पर सम्पादित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

S.O. Adm/19

DRCM
08-5-15

DRCM
W.O.


क्र.सं.	दावा वर्ष	आवेदक	देयता धनराशि	कार्यवाही/निष्कर्ष
1	2007	स्व० श्रीमति शिखा पाठक	५,५२,४७१/-	प्रमुख सचिव, शासन के पत्रांक सं० ५११/२-४-२०११-५३(४)/२००७ लखनऊ दि० ०८.०९.२०११ से धनराशि प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ में इस धनराशि का आहरण नहीं किया जा सका। पत्रावली सं० ६५९/१५ दि० ०९.०२.२०१५ से स्वीकृति आदेश को पुनर्जीवित किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय के माध्यम से शासन से निवेदन किया गया है।
2	2007	स्व० श्रीमति शिखा पाठक	१,४६,६१०/-	मा० उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० ४०२५/४-३२२६/एडमिन-ए-१ सैक्शन दि० ०२.०४.२००९ में दर्शित कमियों को पूर्ण करने के उपरान्त पत्रावली मा० उच्च न्यायालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रांक ११२०/१५ दि० १२ मार्च २०१५ से प्रेषित।
3	2007	स्व० श्रीमति शिखा पाठक	७९,७७८/-	जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक १२.०३.२०१५ से अनुमोदित।
4	2007	स्व० श्रीमति शिखा पाठक	१२६१६/-	जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक २८.०२.२०१५ से अनुमोदित।
5	2010	स्व० श्रीमति शिखा पाठक	७,४६,६७३/-	प्रमुख सचिव, शासन के पत्रांक सं० ३३४४/२-४-२०११-५३(४)/२००७ लखनऊ दिनांक ०४.०५.२०१२ से धनराशि प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

Ref-90

				२०१३ में इस धनराशि का आहरण नहीं किया जा सका। पत्रावली सं० ६६३/१५ दि० ०९.०२.२०१५ से स्वीकृति आदेश को पुनर्जीवित किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय के माध्यम से शासन से निवेदन किया गया है।
६	२०१०	स्व० श्रीमति शिखा पाठक	७१,५६४/-	जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक २८.०२.२०१५ से अनुमोदित।
७	२०११	श्री संजय कुमार पाठक	२,९९१/-	जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक १२.०३.२०१५ से अनुमोदित।
८	२०११	श्री संजय कुमार पाठक	३,९१७/-	जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक १२.०३.२०१५ से अनुमोदित।
९	२०११	श्री संजय कुमार पाठक	२,७३५/-	जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक १२.०३.२०१५ से अनुमोदित।
१०	२०११	श्री संजय कुमार पाठक	३,०००/-	जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक १२.०३.२०१५ से अनुमोदित।
११	२०११	श्री संजय कुमार पाठक	४,८७,५३६/-	दावा २ लाख रु० की सीमा से अधिक है अतः नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर यह दावा अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रांक सं० ९४६/१५ दि० २८.०२.२०१५ से मा० उच्च न्यायालय को प्रेषित।

उपरोक्त सभी दावों पर समुचित कार्यवाही की गयी है। प्रभारी अधिकारी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-१०, गाजियाबाद ने सभी दावों के सम्बन्ध में सम्मिलित आख्या इन कथनों के साथ प्रस्तुत की है कि उक्त आख्या को उ०प्र० शासन को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से प्रेषित की जाये जिससे की पत्रांक सं० ५११/२-४-२०११-५३(४)/२००७ लखनऊ दिनांक ८ सितम्बर २०११ व पत्रांक सं० ३३४४/२-४-२०११-५३(४)/२००७ लखनऊ दिनांक ४ मई २०१२ के द्वारा स्व० श्रीमती शिखा पाठक को अग्रिम भुगतान की गयी ९,००,०००/-रु० की धनराशि समायोजित किये जाने के निर्देश में कोई विसंगती न हो जाये।

अतः अनुरोध है कि आख्या प्रमुख सचिव (न्याय) उ०प्र० शासन को सन्दर्भित करने के आदेश हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद। २३.५.१५
District Judge
Ghaziabad

Reg: 90

Registered Post

From,

Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Ghaziabad.

183

No. 11782 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.,

Dated: 04-09-2015

Sub:- Sanction of medical reimbursement claim for the period from 12.02.2011 to 07.03.2011 amounting to Rs.4,87,536/- at Dharamshila Cancer Hospital & Research Centre, New Delhi, and the claim for the period from 07.03.2007 to 31.03.2007 amounting to Rs.1,46,610/- at Dharamshila Cancer Hospital & Research Centre, Delhi of Late Smt. Shikha Pathak, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir,

With reference to your letter no.1120/IX, dated 12.03.2015 and letter no.964/IX dated 28.02.2015, on the above subject, I am directed to send herewith an attested copy of Court's Order dated 22.08.2015, regarding sanction of medical reimbursement claim amounting to Rs.4,87,536/-, incurred in the treatment of Blood cancer of Late Smt. Shikha Pathak, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, for the period from 12.02.2011 to 07.03.2011 at Dharamshila Cancer Hospital and Research Centre, New Delhi along-with original bill/vouchers and other relevant papers and to say that, after adjusting the amount of advance, if any, draw the amount of medical reimbursement claim and make the payment of aforesaid amount to Sri Sanjay Kumar Pathak H/O Late Smt. Shikha Pathak the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad from the Treasury Officer, Ghaziabad.

I am further directed to say that as per Rule 20 of the Medical Attendance Rules, 2014, the Competent Authority for sanctioning the medical reimbursement claim below Rs.2,00,000/- is the Head of Office, i.e. District Judge.

Thus, the aforesaid medical reimbursement claim amounting to Rs. 1,46,610/- of Late Smt. Shikha Pathak the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, incurred in the treatment of Blood Cancer for the period from 07.03.2007 to 31.03.2007 at Dharamshila Cancer Hospital and Research Centre, New Delhi along-with original bill/vouchers and other relevant papers also be sent to you with request to take action regarding necessary sanction at your own end as per Medical Rules, 2011 read with 2014.

Reg: 90

Encl: As above

1. Attested Copy of Order dated 22.08.2015 along with all the original Bills/vouchers and other relevant records (in original)
2. M.R.C. Amounting to Rs.1,46,610/- with all original bills/vouchers and other relevant records

Yours Faithfully

[Signature]
26.8.15

Deputy Registrar(M)

184

No. 11783/IV-3226/Admin A-1 Sec./ Dated: 04-09-2015

Copy forwarded alongwith attested copy of order dated 22.08.2015 for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad.
2. Sri Sanjay Pathak, H/O Late Smt. Shikha Pathak the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Encl: As above

[Signature]
26.8.15

Deputy Registrar(M)

D.R. (M)

May kindly see the order dated 22.08.2015 of Hon' Mr. Justice Vikram Nath, placed below & may like to issue ?

[Signature]
26/08/15

[Signature]
26/08/15

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

प्रेषित,

वरिष्ठ निबन्धक (बजट),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक- 1120/IX/डी0जे0/गाजियाबाद

दिनांकित- 12 मार्च 2015

विषय-स्व0 शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे के संबंध में -

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आवेदिका स्व0 शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के उपचार में आये खर्च अवधि 07.03.2007 से 31.03.2007 अंकन धनराशि 1,91,133/-रु0 का प्रस्तुत किया गया था। तकनीकी परीक्षण उपरान्त 1,46,610/-रु0 देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य पायी गयी है। उक्त दावा पूर्व में तत्कालीन जिला जज, गाजियाबाद के पत्र संख्या 354/लेखा/डी0जे0/गाजियाबाद दिनांकित 22.08.2008 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था। तदुपरान्त दावा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 4125/चतुर्थ-3226 /प्रशासनिक -ए-1 अनुभाग दिनांकित 02.04.2009 के द्वारा मूल रूप से आपत्ति लगाकर वापिस प्राप्त हुआ था।

प्रभारी अधिकारी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10 की आख्या दिनांकित 04.03.2015 प्राप्त हुई है, जो पत्रावली पर संलग्न है, के अनुसार सम्बन्धित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा मे पूर्व मे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 4125/चतुर्थ-3226 /प्रशासनिक -ए-1 अनुभाग दिनांकित 02.04.2009 पायी गयी कमियाँ दूर की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित पत्र के अनुपालन मे स्व0 शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से संबंधित मूल चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा अंकन 1,46,610/-रु0 कुल प्रपत्र - 93 माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

Senior Regr (CB)
one Natthi

भवदीय,
जनपद न्यायाधीश,
District Judge
Ghaziabad
मार्च 2015

19 MAR 2015 पत्रांक- /डी0जे0/गाजियाबाद दिनांक:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री संजय कुमार पाठक पति स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवासी आई- 401 विवेक बिहार सैक्टर-82 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रशासनिक कार्यालय।
3. कार्यालय प्रति।

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

163/15
648

Reg: 90

19-3-15

4183
Reg: 3226
127

19-3-15
Total (Nakka)

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

23/03/15
27/3/15

7-4-15

प्रेषित,

वरिष्ठ निबन्धक (बजट),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक- 964/1x / डी0जे0/

दिनांकित 28.02.2015

विषय-स्व0 शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे के संबंध में -

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि स्व0 श्रीमति शिखा पाठक के पति आवेदक श्री संजय पाठक द्वारा दिनांक 28.4.2011 को स्व0 श्रीमति शिखा पाठक के उपचार में आये खर्च अवधि 12.02.2011 से 07.03.2011 अंकन धनराशि 5,11,455/-रु0 का प्रस्तुत किया गया था। तकनीकी परीक्षण उपरान्त 4,87,536/-रु0 देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य पायी गयी है। तकनीकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

प्रभारी अधिकारी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10 की आख्या दिनांकित 25.02.2015 प्राप्त हुई है, जो पत्रावली पर संलग्न है। आख्या से अद्योहस्तारी सहमत हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्व0 शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से संबंधित मूल चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा अंकन 4,87,536/-रु0 कुल प्रपत्र 183 माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जनपद न्यायाधीश, 28.2.15
गाजियाबाद।
District Judge
फरवरी: 2015

पत्रांक-

दिनांक:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री संजय कुमार पाठक पति स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवासी आई-401 विवेक बिहार सैक्टर-82 नोएडा, गौतमबुद्धनगर। (स्वीडन पत्रावली)
2. प्रशासनिक कार्यालय।
3. कार्यालय प्रति।

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

790
S.O. Admn M/A

J.R.M.
18-3-15-

56

J.R.M.
w/o M. K. K.

147 MAR 2015

10.3.15
Total 7 Pages 10.3.15

Reg: 90

3638

3226

176

16/03/15

16/03/15

10.3.15

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

प्रेषित,

श्री एस0एस0 गौतम,
डिप्टी रजिस्ट्रार (एम),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक- 929/xv/डी0जे0/

दिनांकित 28.02.2015

विषय-स्व0 शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे के संबंध में -

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं0 14,590/षष्टम-3226/प्रशासनिक ए-1, अनुभाग दिनांकित 10.10.2014 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्रांक में वर्णित चिकित्सा व्यय पत्रावलियों में अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10 की आख्या दिनांकित 27.02.2015 प्राप्त हुई है, जो पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अद्यतन आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-

- 1- प्रभारी अधिकारी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की आख्या दिनांकित 27.02.2015 मूल रूप में।
- 2- प्रभारी अधिकारी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की आख्या दिनांकित 26.02.2015 छाया प्रति (दावा धनराशि 71,564/-रु0 से सम्बन्धित)।
- 3- प्रभारी अधिकारी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की आख्या दिनांकित 26.02.2015 छाया प्रति (दावा धनराशि 23,816 एवं 35514/-रु0 से सम्बन्धित)।

भवदीय
जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद। 28.2.15
District Judge
Ghaziabad

06
So. Adm. HIA

D. R. (M)
09-3-15

Reg: 90

प्रेषक,

नवनीत कुमार,
प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/
अपर जनपद न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-10,
गाजियाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय- स्व० श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र सं०-14,590/षष्टम-3226/
प्रशासनिक ए-1 दिनांकित 10.10.2014 के संबंध में-

महोदय,

स्व० श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र सं० 14,590/षष्टम-3226/ प्रशासनिक ए-1 दिनांकित 10.10.2014 पर माननीय महोदय के आदेश दिनांकित 14.10.2014 के अनुपालन में आख्या निम्न है:-

उपरोक्त पत्रांक के सन्दर्भ में आपके द्वारा दिनांक 16.10.2014 को मुझे विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त पत्रांक के प्रस्तर 7 में निम्न पत्रावलियों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में अख्या निम्नवत है-

प्रस्तर-7(ए):- अंकन धनराशि 23,816/-रु० (अवधि दि० 28.12.2006 से 07.02.2007) एवं धनराशि 35,514/-रु० (अवधि दि० 26.12.2006 से 27.12.2006) से सम्बन्धित है, जिन्हें पत्रांक सं० 3704/4-3226/एडमिन ए-1 सैक्शन दिनांकित 28.02.2011 से इस न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया है। अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :-

दावा धनराशि अंकन 23,816/-रु० (अवधि दि० 28.12.2006 से 07.02.2007) देय धनराशि 12,616/-रु० स्वीकृत होने योग्य पायी गयी है, जो अंकन 2,00,000/-रु० की धनराशि की सीमा से कम है। अतः इस धनराशि का अनुमोदन महोदय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

दावा अंकन 35,515/-रु० (अवधि दि० 26.12.2006 से 27.12.2006) में कार्योत्तर अनुमति से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध न होने के कारण भुगतान आदेश नहीं किया गया है, जिसकी सूचना आवेदक को दी जा चुकी है।

प्रस्तर-7(बी):- यह प्रस्तर दावा धनराशि 1,04,784/-रु० (देय धनराशि 71,564/-) उपचार अवधि दि० 05.06.2010 से 08.06.2010 से सम्बन्धित है। अद्यतन स्थिति यह है कि तकनीकी परीक्षण उपरान्त धनराशि 71,564/-रु० स्वीकृत होने योग्य पायी गयी है। इस धनराशि का अनुमोदन स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रस्तर-7(सी):- माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के पैरा सं०-7(सी) में

Reg: 90

स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 17,846/-रु० बाबत अवधि दि० 28.12.2006 से 07.02.2007 से सम्बन्धित है।

लेखानुभाग में उक्त दावे के सम्बन्ध में पृथक रूप से कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा अंकन 23,816/-रु० (17,886+5,930/-) बाबत अवधि दिनांक 28.12.2006 से 07.02.2007 जोकि चिकित्सा अधीक्षक, एम०एम०जी०, गाजियाबाद की तकनीकी परीक्षण दिनांकित 26.09.2014 के अनुसार अंकन 20,081/-रु० के लिए प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

उक्त दावा से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के पैरा-7(सी) में वर्णित दावे की अवधि अर्थात दिनांक 28.12.2006 से 07.02.2007 एवं पैरा-7(ए) में दर्शाई गयी दावों की अवधि एक ही है तथा अंकन 17,886/-रु० पैरा-7 (ए) में दिये गये दावे के अन्तर्गत ही है। अद्यतन स्थिति यह है कि अलग से इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली विचाराधीन नहीं है। आवेदक को इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत सूचित किया जा चुका है।

प्रस्तर-7(डी):- माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के पैरा सं०-7(डी) में स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 5,52,471/-रु० एवं अंकन 7,46,673/-रुपये से सम्बन्धित है।

स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 5,52,471/-रु० की पत्रावली के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से स्वीकृत आदेश जारी किये जाने हेतु पत्र संख्या-659/पन्द्रहवां दिनांकित 09 फरवरी 2015 प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

इसी प्रकार स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 7,46,673/-रु० की पत्रावली के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से स्वीकृत आदेश जारी किये जाने हेतु पत्र संख्या-663/पन्द्रहवां दिनांकित 09 फरवरी 2015 प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आवश्यक जानकारी प्रेषित की जा सकती है।

आख्या, माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

Seen. Inform the
Hon'ble High Court
20.2.15

District Judge
Ghaziabad

भवदीय,

नवनीत कुमार, 27/2/15

प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/
अपर जनपद न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-10,
गाजियाबाद।

Rec-90!!!

प्रेषक,

नवनीत कुमार,
प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/
अपर जनपद न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-10,
गाजियाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय-प्रार्थना पत्र चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा स्व० श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के संबंध में -

महोदय,

उपरोक्त विषयक मेरे द्वारा सहायक प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं लिपिकगण की आख्या तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके संबंध में आख्या निम्नवत है-

1- स्व० श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 23,816/-रु० बाबत अवधि दि० 28.12.2006 से 07.02.2007 एवं दावा अंकन 35,514/-रु० बाबत अवधि दि० 26.12.2006 से 27.12.2006 से सम्बन्धित है।

2- लेखानुभाग में उक्त प्रतिपूर्ति दावों की पत्रावली के अनुसार दावा शासनादेश सं० 1209/5-6-2004-294/96 टी.सी. दिनांकित 9 अगस्त 2004 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। उक्त शासनादेश के अनुसार दावे के साथ निम्न औपचारिकतायें आवश्यक था :-

1- समस्त बिल/बाउचर की मूल प्रतिलिपि जोकि दावे में उपलब्ध है।

2- समस्त बिल/बाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित हैं जो कि दावे में उपलब्ध हैं।

3- अनिवार्यता प्रमाण पत्र संलग्न है जोकि दावे में उपलब्ध है।

4- अनिवार्यता प्रमाण पत्र में रोग का नाम उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है तथा व्यय विवरण संलग्न है जोकि दावे में उपलब्ध है।

5- अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित अवधि के उपचार अवधि के भीतर के तिथियों के ही बिल/बाउचर का ही भुगतान किया जायेगा।

उक्त दावे में बाउचर दिनांकित 5.03.2007 बाबत अंकन 185/-रु० एवं बाउचर दिनांकित 50.03.2007 बाबत अंकन 7,280/-रु० (कुल अंकन 7,465/-रु०) अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि अर्थात् दिनांक 26.12.2006 से 27.12.2006 एवं 28.12.2006 से 07.02.2007 की अवधि से बाहर के बिल/बाउचर संलग्न हैं, इन दो बाउचरों के अतिरिक्त समस्त बाउचर बिल अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि के अन्तर्गत ही हैं।

6- अनिवार्यता प्रमाण पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, जोकि पत्रावली पर उपलब्ध है।

7- प्रदेश के भीतर विशिष्ट चिकित्सा संस्थान तथा संजय गांधी आर्युविज्ञान संस्थान तथा प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में उपचार कराने हेतु सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण में प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भ तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण में मण्डलीय चिकित्सा परिषद/राज्य चिकित्सा परिषद का संदर्भ/कार्योत्तर संस्तुति संलग्न है। सम्बन्धित आवेदिका द्वारा उक्त अवधि के दौरान कराये गये उपचार प्रदेश से बाहर के हैं अतः यह पैरा लागू नहीं है।

8- प्रदेश के बाहर अन्य राज्य के चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने पर शासकीय अनुमति/कार्योत्तर अनुमति संलग्न है।

उक्त चिकित्सा दावा बाबत अवधि दिनांक 28.12.2006 से 07.02.2007 धर्मशिला कैंसर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेंटर, दिल्ली में कराये गये चिकित्सा के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 के पत्र सं० यू.ओ.-523/5-6-2011 दिनांकित 26.05.2011 पत्र

Rev. 50

की छाया प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को दिनांक 28.12.2006 से 08.05.2007 तक की अवधि के दौरान प्रदेश से बाहर धर्मशिला कैंन्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेंटर दिल्ली में कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गयी है। दावा बाबत अवधि दिनांक 26.12.2006 से 27.12.2006 जोकि इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, दिल्ली में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कोई भी कार्योत्तर अनुमति से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। उक्त दावे के संबंध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त पत्र सं० 3704/चतुर्थ-3226/प्रशासनिक ए-1 सैक्शन दि० 28-02-11 के द्वारा संबंधित पत्रावली को अपर निदेशक मेरठ मंडल मेरठ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराने संबंधित आपत्ति लगायी गयी थी जिसका निराकरण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा जारी तकनीकी परीक्षण आख्या दिनांकित 26-09-14 के द्वारा दूर की गयी है। वर्तमान चिकित्सा नियमावली 2014 के अनुसार स्व० आवेदिका के पति श्री संजय कुमार पाठक द्वारा परिशिष्ट-ग दिनांकित 09.12.2014 प्रस्तुत किया गया है।

इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र सं० 12832 दिनांकित 04.10.2008 में उठाई गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित 16 अक्टूबर 2008 जो कि तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अग्रसारित करके एन्डोर्समेन्ट सं० 2507/प्रथम दिनांकित 17.10.2008 माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र सं० 11085/चतुर्थ-3226/प्रशासनिक-ए-1 सैक्शन दिनांकित 27.07.2012 में अंकन 1,00,000/-रु० से कम के दावे को कार्यालयाध्यक्ष के स्तर से स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः इस दावों में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि की सीमा अंकन 12,616/-रु०को दृष्टिगत रखते हुये यह दावा इस स्तर पर ही स्वीकृत किये जाने योग्य है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के सम्बन्ध में चिकित्सा दावा अंकन 23,816/-रु० बाबत अवधि दिनांक 28.12.2006 से 07.02.2007 को अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं तकनीकी परीक्षण दिनांकित 26.09.2014 में देय धनराशि अंकन 20,081/-रु० में से 7,465/-रु० घटा कर शेष अंकन 12,616/-रु० का भुगतान किया जा सकता है।

स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के सम्बन्ध में चिकित्सा दावा अंकन 35,514/-रु० बाबत अवधि दिनांक 26.12.2006 से 27.12.2006 को अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं तकनीकी परीक्षण दिनांकित 26.09.2014 में देय धनराशि अंकन 10,499/-रु० के सम्बन्ध में इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल दिल्ली में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कोई भी कार्योत्तर अनुमति से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक सूचित हो।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

A' A' Approved
28.2.15
District Judge
Ghaziabad

भवदीय
(नवनीत कुमार) 26/2/15
प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/
अपर जनपद न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-10,
गाजियाबाद।

R-90

प्रेषक,

श्वनीत कुमार,
प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/
अपर जनपद न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-10,
गाजियाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय- प्रार्थना पत्र चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा स्व० श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के संबंध में -

महोदय,

उपरोक्त विषयक मेरे द्वारा सहायक प्रभारी अधिकारी- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं लिपिक्रमण की आख्या तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके संबंध में आख्या निम्नवत है-

1. स्व० श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 1,04,784/-रु० (देय धनराशि 71,564/-) बाबत अवधि दि० 05.06.2010 से 08.06.2010 से सम्बन्धित है।

2- यह दावा पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 11085/षष्टम- 3226/ प्रशासनिक-ए-1 अनुभाग दिनांकित 27.07.2012 के द्वारा मूल रूप से इस कार्यालय में दिनांक 03.08.2012 को प्राप्त हुआ है। लेखानुभाग में उक्त प्रतिपूर्ति दावे का पत्रावली के अनुसार दावा शासनादेश सं० 1209/5-6-2004-294/96 टी.सी. दिनांकित अगस्त 2004 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। उक्त शासनादेश के अनुसार दावे के साथ निम्न औपचारिकतायें आवश्यक थी :-

- 1- समस्त बिल/बाउचर की मूल प्रतिलिपि जोकि दावे में उपलब्ध है।
- 2- समस्त बिल/बाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित हैं जो कि दावे में उपलब्ध हैं।
- 3- अनिवार्यता प्रमाण पत्र संलग्न है जोकि दावे में उपलब्ध है।
- 4- अनिवार्यता प्रमाण पत्र में रोग का नाम उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है तथा व्यय विवरण संलग्न है जोकि दावे में उपलब्ध है।
- 5- अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित अवधि के उपचार अवधि के भीतर के तिथियों के ही बिल/बाउचर का ही भुगतान किया जायेगा।

समस्त बाउचर बिल अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि के अन्तर्गत ही हैं।

6- अनिवार्यता प्रमाण पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, जोकि पत्रावली पर उपलब्ध है।

7- प्रदेश के भीतर विशिष्ट चिकित्सा संस्थान तथा संजय गांधी आर्युविज्ञान संस्थान तथा प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में उपचार कराने हेतु सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण में प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भ तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण में मण्डलीय चिकित्सा परिषद/राज्य चिकित्सा परिषद का संदर्भ/कार्योत्तर संस्तुति संलग्न है। सम्बन्धित आवेदिका द्वारा उक्त अवधि के दौरान कराये गये उपचार प्रदेश से बाहर का है अतः यह पैरा लागू नहीं है।

8- प्रदेश के बाहर अन्य राज्य के चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने पर शासकीय अनुमति/कार्योत्तर अनुमति संलग्न है।

उक्त चिकित्सा दावा बाबत अवधि दिनांक 05.06.2010 से 08.06.2010 धर्मशिला कैंन्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सैन्टर दिल्ली में कराये गये चिकित्सा के सम्बन्ध में है। कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के पत्र सं० बी-7/10/15906 दिनांकित 25.11.2010/16.12.2010 के अनुसार आवेदिका के पत्र दिनांकित 14.10.2010 के संदर्भ में मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 25.11.2010 को आयोजित राज्य चिकित्सा परिषद उ० प्र०, लखनऊ की बैठक में लिखित निर्णय के अनुसार स्व० शिखा पाठक को धर्मशिला कैंन्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सैन्टर

829:90

2

दिल्ली में कराये गये उपचार हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त पत्र की मूल प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इस चिकित्सा प्रतिपत्ति दावे के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त पत्र सं० 11085/ चतुर्थ - 3226/प्रशासनिक -ए-1 सैक्शन / दिनांकित 27-07-12 में अंकन 1,00,000/- से कम के चिकित्सीय दावे को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है। पत्रावली पर शासन के पत्र सं० 899/ 2- 4-2012-53 (4)/ 2007 दि० 14-05-12 की छाया प्रति उपलब्ध है। पत्र के अनुसार उक्त दावा अंकन 71,564/- की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 के प्राविधानों के अंतर्गत सक्षम स्तर से करने कष्ट करें तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 728/ 2004- 08-53 (4)/ 2007 दि० 20-03-08 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम अंकन नौ लाख रुपये के सापेक्ष समायोजित किये जाने का आदेश किया गया है।

शासन के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवगत करना है कि स्व० श्रीमती शिखा पाठक को शासन द्वारा पत्र सं० 511/ 2 -4-2001-53 (4)/ 2007 दि० 08-09-11, नौ लाख रुपये-चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया गया था। स्व० श्रीमती शिखा पाठक के चिकित्सा प्रतिपत्ति दावा अंकन 05,52,471/- बाबत अवधि दि० 28-12-06 से दि० 07-02-07 को शासन द्वारा पत्र सं० 511/ 2-4-2011-53 (4)/ 2007 दि० 08 सितंबर 2011 स्वीकृत करते हुये संबंधित धनराशि को पूर्व में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 728/ 2-4-08-53 (4)/ 2007 दि० 20मार्च 2008 द्वारा श्रीमती शिखा पाठक को स्वीकृत किये गये चिकित्सा अग्रिम धनराशि नौ लाख के सापेक्ष समायोजित किये जाने के निर्देश भी जारी किये गये हैं। इसी प्रकार शासन द्वारा स्व० श्रीमती शिखा पाठक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा अंकन 07,46,673/- बाबत अवधि दि० 08-06-10 से 01-09-10 की स्वीकृति प्रदान करते हुये अपने पत्र सं० 3344/ 2-4-2011-53 (4)/ 2007 दि० 14 मई 2012 द्वारा संबंधित स्वीकृत धनराशि को स्व० श्रीमती शिखा पाठक को पूर्व में किये गये स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम में शेष असमायोजित धनराशि अंकन 03,47,529/- को समायोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त दोनों चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत आदेशों का निष्पादन न होने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश के पत्र सं० 659/ पन्द्रह दि० 9फरवरी 2015 एवं पत्र सं० 663/ पन्द्रह दि० 9फरवरी 2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से शासन को वित्त वर्ष 2014-15 में आहरित किये जाने के लिये प्रेषित किये गये हैं।

वर्तमान चिकित्सा नियमावली 2014 के अनुसार स्व० आवेदिका के पति श्री संजय कुमार पाठक द्वारा परिशिष्ट-ग दिनांकित 09.12.2014 प्रस्तुत किया गया है।

A' उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए स्व० श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के सम्बन्ध में चिकित्सा दावा अंकन 1,04,784/-रु० बाबत अवधि दिनांक 05.06.2010 से 08.06.2010 को अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं तकनीकी परीक्षण दिनांकित 30.06.2011 में देय धनराशि अंकन 71,564/-रु० का भुगतान किया जा सकता है। *अवधि सूचित की*

आख्या, माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

A' Approved
25.2.15
District Judge
Ghazipur

भवदीय,

गौतम
(नवनीत कुमार) 2612104
प्रभारी अधिकारी-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/
अपर जनपद न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-10,
गाजियाबाद।

Registered Post

From,

S.S.Gautam
Deputy Registrar(M)
High Court of Judicature At
Allahabad.

Recd: 30

To,

Sri Dharendra Kumar Upadhyay,
Under Secretary,
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

179.

No. 4554 IV-3226 / Admin A-1 Section / Dated, March, 02-04-2015

Subject: Medical reimbursement claim, of Late Smt. Shikha Pathak, Ex Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, amounting to Rs.7,46,673.00 for the period of treatment from 08.06.2010 to 01.09.2010, incurred in her treatment, out of state at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and amounting to Rs.5,52,471.00, for the period of treatment from 28.12.2006 to 07.02.2007, incurred in her treatment, out of state at Dharamshila Cancer Hospital and Research Centre, Delhi.

Sir,

While enclosing copies of letter No.663/XV, dated 09.02.2015 and letter No.659/XV, dated 09.02.2015 of District Judge, Ghaziabad, I am directed to send all original bill/vouchers and other relevant papers of the aforesaid both medical reimbursement claims amounting to Rs.7,46,673.00 and amounting to Rs.5,52,471.00 of Late Smt. Shikha Pathak, Ex Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad and to say that the aforesaid claims has been sanctioned by the Government through the letter No.3344/2-4-2011-53(4)/2007, dated 14.05.2012 and letter No.511/2-4-2011-53(4)/2007, dated 08.09.2011 respectively of Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, on which the then District Judge has directed to Officer Incharge, "Bill" on 19.05.2012 & 13.10.2011. No action has been taken thereafter, as a result both the sanctioned amount has not been drawn in the financial year 2012-2013 and 2011-2012 respectively and the sanction orders of the Government remained unutilised.

The District Judge Ghaziabad has requested, for forwarding the aforesaid both claims to the Government for the revival of the aforesaid both sanction orders of the Government.

I am therefore recommending the proposal to obtain necessary orders of the Government, for the revival of the aforesaid unutilised both sanction orders passed by the Government through letter No.3344/2-4-2011-53(4)/2007, dated 14.05.2012 and through letter No.511/2-4-2011-53(4)/2007, dated 08.09.2011 of Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, such that the aforesaid sanctioned amounts of Rs.7,46,673.00 and Rs.5,52,471.00 may be drawn in the financial year 2015-2016.

Encl. : As above

1. Copy of letter No.663/XV, dated 09.02.2015 of District Judge, Ghaziabad alongwith all original bill/vouchers and relevant papers of medical reimbursement claim, amounting to Rs.7,46,673.00 of Late Smt. Shikha Pathak, Ex Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.
2. Copy of letter No.659/XV, dated 09.02.2015 of District Judge, Ghaziabad alongwith all original bill/vouchers and relevant papers of medical reimbursement claim, amounting to Rs. 5,52,471.00 of Late Smt. Shikha Pathak, Ex Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad

Your's faithfully

[Signature]
30.3.15

Deputy Registrar(M)

Registered Post

No. 4555 IV-3226 / Admin A-1 Section / Dated, March, 02-04, 2015

Copy forwarded for information and necessary action to District Judge, Ghaziabad.

S.O. Admin A-1 / D.R.(M)

May like to see the order dated 25.03.2015 of
Ld- Registrar General, placed below and may
like to issue?

[Signature]
27-03-15

[Signature]
27/03/15

[Signature]
30.3.15
Deputy Registrar(M)

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,

गाजियाबाद।

सेवा में,

महा-निबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

पत्रांक - 659/XV

दिनांक :- 09 फरवरी 2015

विषय: स्व0 श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि आवेदिका स्व0 श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं0-511/दो-4-2011-53(4)/2007 दिनांकित 8.9.2011 से शासन द्वारा स्व0 श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर दि0 28.12.2006 से 07.2.2007 तक करायी गई चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष अंकन 5,52,471/-रु0 (पांच लाख बावन हजार चार सौ इकहत्तर रु0 मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिस पर माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.10.2011 को प्रभारी अधिकारी, "बिल" को निर्देशित किया गया। आदेश दिनांक 13.10.2011 के पश्चात इस पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-2012 में आहरित नहीं की जा सकी और शासन से स्वीकृति का आदेश निष्प्रभावी हो गया।

उक्त निष्प्रभावी स्वीकृति आदेश को वित्तीय वर्ष 2014-2015 में पुनर्जीवित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र पत्रांक 423 गाजियाबाद दिनांकित 22.09.2014 प्रेषित किया गया। तथा प्रभारी अधिकारी जिला जज गाजियाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को उक्त के सम्बन्ध में स्मरण पत्र पत्रांक 624 दिनांकित 03.01.2015 भी प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में "अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के पत्रांक संख्या 103/दो-4-2015-53 (4)/2017 लखनऊ, दिनांकित जनवरी, 2015 से चिकित्सा दावा मूलरूप में महानिबन्धक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु " इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

अतः अनुरोध है कि स्व0 श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से सम्बन्धित मूल चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा कुल प्रपत्र- 243, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित करने हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

भवदीय,


जनपद न्यायाधीश, 9.2.15

गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad


पत्रांक -


दिनांक : फरवरी 2015


प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-श्री संजय कुमार पाठक पति स्व0 श्रीमति शिखा पाठक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निवासी - आई - 401 विवेक बिहार सैक्टर -82 नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)।
- 2- प्रशासनिक कार्यालय।
- 3-कार्यालय प्रति।

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।


So. Adm H/A


21-2-15


26/2/15

20/2/15
2287

21.2.15
Total D. Nathi

Regd. No.
3166

23.2.15

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक :-

663/xv

दिनांक: 09, फरवरी 2015

विषय:

स्व० श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि आवेदिका स्व० श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति दावे में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं० 3344/दो-4-2011-53(4)/2007 दिनांकित 14.5.2012 से शासन द्वारा स्व० श्रीमति शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर दि० 8.6.2010 से 1.9.2010 तक करायी गई चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष अंकन 7,46,673/-रु० (सात लाख छयालिस हजार छः सौ तिहत्तर रु० मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की गयी थी, जिस पर तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.05.2012 को प्रभारी अधिकारी, "बिल" को निर्देशित किया गया। आदेश दिनांक 19.05.2012 के पश्चात इस पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आहरित नहीं की जा सकी और शासन से स्वीकृति का आदेश निष्प्रभावी हो गया।

उक्त निष्प्रभावी स्वीकृति आदेश को वित्तीय वर्ष 2014-2015 में पुर्नजीवित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र पत्रांक 424 गाजियाबाद दिनांकित 22.09.2014 प्रेषित किया गया। तथा प्रभारी अधिकारी जिला जज गाजियाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, (नियुक्ति अनुभाग-4) उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को उक्त के सम्बन्ध में स्मरण पत्र पत्रांक 625 दिनांकित 03.01.2015 भी प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में "अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के पत्रांक संख्या 103/दो-4-2015-53(4)/2017 लखनऊ, दिनांकित जनवरी, 2015 से चिकित्सा दावा मूलरूप में, महानिबन्धक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु", इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

अतः अनुरोध है कि स्व० श्रीमति शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से सम्बन्धित मूल चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा कुल प्रपत्र- 228, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित करने हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

3

JR M
Em D. Nathi

21 FEB 2015

पत्रांक -

दिनांक :- 02-2015

भवदीय
जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
District Judge
Ghazipur

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-श्री संजय कुमार पाठक पति स्व० श्रीमति शिखा पाठक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निवासी - आई - 401

विवेक बिहार सैक्टर -82 नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)।

2- प्रशासनिक कार्यालय।

3-कार्यालय प्रति।

30 Adm HIA

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

D.R.M

21-2-15

1379

Reg-90

Registered Post

From, S.S. Gautam, Deputy Registrar (M), High Court of Judicature at Allahabad.

To Sri Sanjay Kumar Pathak, H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VII, Ghaziabad, R/o I-401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304, Mobile No.91-9958999737,9868262260

* at Flag 'B'

172

No. 16486 /IV-3226/ Admin A-1 Sec., / Dated 24- November, 2014

Subject: Regarding Medical reimbursement claims, of Late Smt Sikha Pathak, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir

With reference to your letter dated 09.04.2014 and dated 12.07.2014, on the above subject, I am to inform you that action has already been taken in this regard in reference to letter No.152/Lekha/D.J./Ghaziabad, dated: 03.06.2014, of District Judge, GHaziabad and the District Judge, Ghaziabad has been requested to provide the current status, to this Court, through Court's Letter* No.14590, dated 10.10.2014 regarding the following medical reimbursement claims of Late Smt. Sikha Pathak, the then A.C.J.M., Ghaziabad (copy of Court's Letter No.14590, dated 10.10.2014 is enclosed for ready reference) :

Draft appointment 18/11/14

- (a) Amounting to Rs.23,816.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007) and amounting Rs.35,514.00 (for the period from 26.12.2006 to 27.12 2006) returned to you, by the Court through Court's letter No. 3704/IV-3226/Admin A-1 Sec./dated 28.02.2011.
- (b) Amourting to Rs.71,564.00 (for the period from 05.06.2011 to 08.06.2011), returned to you, by the Court, through Court's letter No. 11085/IV-3226/Admin A-1 Sec./dated 27.07.2012.
- (c) Amounting to Rs.17,846.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007), returned to you, by the Court through Court's letter No.13886/IV-3226/Admin A-1 Sec./ dated 31.08.2010.
- (d) Also provide the current status of payment regarding medical reimbirsement claims amounting to Rs.5,52,471.00 and Rs.7,46,673.0 sanctioned by the Government, after adjustment of sanctioned medical advance of Rs.9.00.000.00.

Copy of Court's Letter No.14590, dated 10.10.2014 is also forwarded to the Under Secretary, Appointment Section - 4, Government of U .P., Lucknow along-with copy of letter dated 03.06.2014 of District Judge, Ghaziabad, with the request to provide the current status of the medical reimbursement claim amounting to Rs.1,46,610.00 (for the period from 07.03.2007 to 31.03.2007), Rs.79,778.00 (for the period from 23.04.2007 to 08.05.2007), sent to him from the Court through Court's letter No.3702/IV-3226/Admin A-1 Sec./ dated 28.02.2011.

The reply of District Judge, Ghaziabad and from the Government is awaited in this regard.

Encl. : As Above
* Copy of Court's letter No.14590, dated 10.10.2014

Your's Faithfully

Deputy Registrar(M)

S.O. Admin-A
18/11

S.O. Admin A-1 / D.R. (M)

May like to see the letter dated 09-04-2014 (at Flag 'A') & dated 12-07-2014 (at Flag 'C').

With the approval of Sr.Registrar (S)(Budget), may like to issue?

11.11.2014

[Signature]
18/11/14

S. Registrar (B)
May like to approve the intant draft letter
[Signature]
12/11/14
S.R.M.

[Signature]
19/11/14

Sanjay
7-8-14
Encl - 32 page

12441
3.2.26.9
169
8.8.14
29/8/14

Ref: 90

21/08/14

18-10-14

390

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
I-401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

09.04.2014

To,
Hon'ble the Chief justice
High Court of Judicature at Allahabad

Subject: Inordinate delay in medical bill Re imbursement .


Most Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak was posted as ACJM-VII, Ghaziabad when she died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment of Blood Cancer.

She was hospitalised for treatment in the year 2007, 2010 and 2011 and the original bills alongwith the required documents for 2007 and 2010 were duly submitted by late Shikha Pathak. I personally submitted the medical bills for 2011 and necessary documents in the office of District Judge, Ghaziabad in 2011 itself.

However despite reminders the medical reimbursement has not been made so far. I had personally submitted a letter dated 31.10.2012 in the office of the Hon'ble Chief Justice on 31.10.2012 a copy whereof is attached herewith. I have personally visited the office of District Judge, Ghaziabad on several occasions.

May I request your lordship to look into the matter and issue necessary directions to expedite the reimbursement in a time bound manner.

Regards

Sanjai Kumar Pathak

Registrar General
Submitted
P. P. S.
Date.....

Senior Registrar (B)

Registrar General
Submitted
P. P. S. 1.8.
Date.....


DR(M)

32 2294
So. Admn. M/A

Sri S.K.P. R.G.
04/08/2014

Sr. Rep (B)
6-8-14

DR (m)
07-8-14


04/10/14

Ref: 90

17

From,

Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,

**Hon'ble the Chief justice
High Court of Judicature at Allahabad**

30.10.2012

*Subject: Medical bill reimbursement of my wife Late Shikha Pathak, the then
ACJM, Ghaziabad.*

Most Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VII, Ghaziabad was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) since December 2006. She died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment.

She was hospitalised for the treatment in the years 2007, 2010 and 2011. All the medical bills of late Shikha Pathak, in original, have already been submitted and duly acknowledged. The amount of bills and the sanction granted so far are given below;

Year 2007

1.	BILL AMOUNT 6,88,901/-	Amt. SANCTIONED Rs. 5,52,471/-
2.	BILL AMOUNT 1,91,133/-	Amt. SANCTIONED Rs. 1,46,610/-
3.	BILL AMOUNT 1,20,799/-	Amt. SANCTIONED Rs. 79,778/-
4.	BILL AMOUNT 23,816/-	Amt. SANCTIONED Rs. 17,846/-


YEAR 2010

5.	BILL AMOUNT Rs. 8,18,237/-	Amt. SANCTIONED Rs. 7,46,673/-
----	----------------------------	--------------------------------

YEAR 2011

6.	BILL AMOUNT Rs. 5,67,307/-	No information so far
----	----------------------------	-----------------------

Till date even the sanctioned amount has not been disbursed.



Red.
M.J.F.
31.10.12

Ref: 90

18

I am constrained to write to you in view of the casual approach of the concerned officers. Instead of informing the current status of reimbursement or taking steps for disbursement of sanctioned amount, the Registrar (M) has simply attached a copy of sanction letter dated 14.05.2012 which I had submitted for his consideration. The copy of letter with annexures sent by me and its reply by the Registrar is annexed herewith.

The sum total of the reimbursement claim is Rs. 24,10,193/-, and an amount of Rs. 9 lakhs has to be deducted therefrom which was paid to Smt. Shikha Pathak in 2007 as medical advance. Thus, the balance amount of approx. Rs. 15,10,193/- (fifteen lakhs ten thousands one hundred and ninety three) is due to be paid to me.

I have neither been communicated nor could I see any reason for this inordinate delay in reimbursement.

Kindly look into the matter and expedite.

Kindly acknowledge receipt.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

Rem: 90

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
I-401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,
Hon'ble the Chief justice
High Court of Judicature at Allahabad

09.04.2014

Subject: Inordinate delay in medical bill Re imbursement .

Most Respected Sir,


My wife mrs. Shikha Pathak was posted as ACJM-VII, Ghaziabad when she died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment of Blood Cancer.

She was hospitalised for treatment in the year 2007, 2010 and 2011 and the original bills alongwith the required documents for 2007 and 2010 were duly submitted by late Shikha Pathak. I personally submitted the medical bills for 2011 and necessary documents in the office of District Judge, Ghaziabad in 2011 itself.

However despite reminders the medical reimbursement has not been made so far. I had personally submitted a letter dated 31.10.2012 in the office of the Hon'ble Chief Justice on 31.10.2012 a copy whereof is attached herewith. I have personally visited the office of District Judge, Ghaziabad on several occasions.

May I request your lordship to look into the matter and issue necessary directions to expedite the reimbursement in a time bound manner.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

From,

Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,

**Hon'ble the Chief justice
High Court of Judicature at Allahabad**

30.10.2012

*Subject: Medical bill reimbursement of my wife Late Shikha Pathak, the then
ACJM, Ghaziabad.*

Most Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VII, Ghaziabad was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) since December 2006. She died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment.

She was hospitalised for the treatment in the years 2007, 2010 and 2011. All the medical bills of late Shikha Pathak, in original, have already been submitted and duly acknowledged. The amount of bills and the sanction granted so far are given below;

Year 2007

1.	BILL AMOUNT 6,88,901/-	Amt. SANCTIONED Rs. 5,52,471/-
2.	BILL AMOUNT 1,91,133/-	Amt. SANCTIONED Rs. 1,46,610/-
3.	BILL AMOUNT 1,20,799/-	Amt. SANCTIONED Rs. 79,778/-
4.	BILL AMOUNT 23,816/-	Amt. SANCTIONED Rs. 17,846/-

YEAR 2010

5.	BILL AMOUNT Rs. 8,18,237/-	Amt. SANCTIONED Rs. 7,46,673/-
----	----------------------------	--------------------------------

YEAR 2011

6.	BILL AMOUNT Rs. 5,67,307/-	No information so far
----	----------------------------	-----------------------

Till date even the sanctioned amount has not been disbursed.



Recd.
11/11/12
31.10.12

Reg-90

18

I am constrained to write to you in view of the casual approach of the concerned officers. Instead of informing the current status of reimbursement or taking steps for disbursement of sanctioned amount, the Registrar (M) has simply attached a copy of sanction letter dated 14.05.2012 which I had submitted for his consideration. The copy of letter with annexures sent by me and its reply by the Registrar is annexed herewith.


The sum total of the reimbursement claim is Rs. 24,10,193/-, and an amount of Rs. 9 lakhs has to be deducted therefrom which was paid to Smt. Shikha Pathak in 2007 as medical advance. Thus, the balance amount of approx. Rs. 15,10,193/- (fifteen lakhs ten thousands one hundred and ninety three) is due to be paid to me.

I have neither been communicated nor could I see any reason for this inordinate delay in reimbursement.

Kindly look into the matter and expedite.

Kindly acknowledge receipt.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

209-90

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
Address: I-401, Vivek Vihar, Sector-82
NOIDA-201305, Mobile- 9958999737

To,
The Registrar General
High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad, U.P.

12.07.2014

Subject: Undue delay in Medical Reimbursement/ Reminder

Respected Sir,

My wife Shikha Pathak was serving as ACJM-VII when she died on 07.03.2011 due to Blood Cancer. She was admitted in the Hospital in 2007, 2010 and 2011. The medical bills for the relevant periods have already been duly submitted by her and after her death by me.

Needless to mention that the treatment of cancer is very expensive but despite requests by my late wife, neither her medical bills were paid nor the advance was sanctioned when she needed it the most. However, her treatment was carried on with the help of family and friends. Some of the letters written by her for medical reimbursement etc are annexed as **Annexure-1. (Pg 3-8)**

In response thereto, she received several letters from the Office of the Joint Registrar, however, the medical reimbursement was not disbursed for the reasons known to the relevant authorities. Some of the letters sent by the Joint Registrar are annexed herewith as **Annexure-2. (Pg 9-16)**

After her death, I submitted the remaining bills and sent several letters and reminders for reimbursement of medical expenses but till date I have not been reimbursed the medical expenses. Copies of some letters written by me are annexed herewith as **Annexure-3. (Pg 17-23)**

In the meantime, communication from the Government indicated that some payments have been cleared and approved by the Government, However,

no disbursement has been made by the Ghaziabad Judgeship so far. Copies of the communication from Government which are in my knowledge are annexed herewith as **Annexure-4.** (Pg 24-28)

Under the facts and circumstances mentioned above, I request you to instruct the concerned officers to expedite the full payment of medical reimbursement due. I shall be highly obliged for your kind intervention in the matter for a time bound disposal.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

M-995899737

Email: pathaklawyer@rediffmail.com

✓ CC; Hon'ble the Chief Justice
High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad, U.P.



Sanjai Kumar Pathak

Annexure-1 Reg-90

3

To
Shri Beche Lal
Joint Registrar (M)
High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad

PRIORITY

October 16, 2008

Through
The District Judge
Ghaziabad

VIA FAX/SPEED POST


Ref: Letter no 12832/IV-3226/Admin-A-1Sec/dated 4-10-08


Subject: Reimbursement of my medical expenses incurred while undergoing treatment for Acute Myeloid Leukemia at Dharamshila Cancer Hospital.

I have received the above communication and most humbly I wish to draw your attention to the following facts:

1. The total medical bills/vouchers submitted by me was to the tune of Rs 9, 64, 797/- (Rupees Nine Lakhs sixty four thousand and seven hundred ninety seven) and not for Rs 60, 000/- as mentioned in the above communication.
2. Kindly note that vide my letter dated 16-06-2008 I had submitted my above bills/vouchers to the District Judge, Ghaziabad. Copy of my letter is annexed hereto.
3. Vide his letter dated 18-06-08 District Judge, Ghaziabad had submitted my bills/voucher to the Medical Board, Meerut. Copy is annexed hereto.
4. Over here I wish to mention that I had also written to the Under Secretary, Appointment Section, Lucknow stating that since my maintenance therapy is still continuing I may be allowed to submit my remaining medical bills/vouchers by December 2008.
5. I also wish to mention that I had to run from pillar to post to understand the formalities regarding the submission of these medical bills. All the 8 requirements mentioned in paragraph 8 of the GO No. 1209/5V-6-2004/294 have been duly complied by me.
6. The above medical bills have been countersigned by the Medical Board, Meerut.
7. I shall be sending the Certificate of the State Medical Board, regarding permission to undergo treatment outside Uttar Pradesh, after acquiring the same at the earliest.

Sincerely,


Shikha Pathak
ACJ-I, Ghaziabad

Endorsement N. 2507/E. Dt. 17/10/08
Forwarded to Shri. Beche Lal, Joint Registrar (M)
Allahabad High Court, Allahabad

District Judge

प्रेषिका:-

Reg-90

9

शिखा पाठक,
अपर सिविल जज {ज. डि. }
कोर्ट सं०-1, गाजियाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय:- उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या- 728/दो-4-08-53 {4} /
207 लखनऊ दिनोंक 20 मार्च, 2008 के संदर्भ में प्रतिपूर्ति सम्बन्धी
चिकित्सा बिलों का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित विषय के संदर्भ में मेरे द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति
वावा सम्बन्धी अपनी चिकित्सा व्यय के बिल {मूल प्रति} 60 परत अंकन, 20,799/
रुपये के आपके सेवा में प्रेषित किये जा रह हैं, जो आपके द्वारा संस्तुति हेतु उप-
निदेशक, मंडलीय चिकित्सा, मेरठ मंडल, मेरठ को प्रेषित किये जाने हैं।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रेषित उक्त चिकित्सा व्यय
के मूल बिलों को संस्तुति हेतु उप-निदेशक, मंडलीय चिकित्सा परिषद मेरठ मंडल, मेरठ
को प्रेषित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया

{शिखा पाठक}

अपर सिविल जज {ज. डि. }
कोर्ट सं०-1, गाजियाबाद।

दि०- 12.02.2009

13/02/09

Ref: go

5

From
Shikha Pathak
Addl Chief Judicial Magistrate -7, Ghaziabad
Admitted in AIIMS since 8th June 2010 for treatment of BLOOD CANCER

29-Jul-10

TO
Shri Surendra Bahadur
Joint Registrar (M)
High Court of Judicature at Allahabad

URGENT

Through
The District Judge
Ghaziabad,
No. 2529/10 Dated 3.7.2010

Through special messenger

Sub: Re-submission of medical reimbursement claim
Ref: Your letter No. 11271/IV-3226/Admin-A 1 Sec dated 20-7-2010

Respected Sir:

Kindly take reference of your above letter. As directed by you I am re-submitting my Original medical bills for the treatment undergone by me for Blood Cancer in 2007. The following is the detail of all the bills being re-submitted by me:

1. Original Bill amounting to Rs 5,52,471/- Rupees five lakhs fifty two thousand four hundred seventy one (actual amount Rs 688901/-)
2. Original Bill amounting to Rs 1,46,610/- (rupees one lakh forty six thousand six hundred ten) (actual amounting to Rs 1,91,133/-)
3. Original Bill amounting to Rs 79,778/- (rupees seventy nine thousand seven hundred seventy eight) (actual bill amounting to rupees 1,20,799/-)
4. Original Bill amounting to Rs 17,846 (seventeen thousand eight hundred forty six) (actual amounting to Rs 23,816/-)

You are humbly and earnestly requested to do the needful.

Yours faithfully,

Shikha Pathak

Shikha

Cc: Under Secretary, Appointment Section-4, Lucknow.

2529/10 31.7.2010
The Under Secretary
Appointment Section-4, Lucknow.

[Signature]
31/7/10

प्रेषिका

शिखा पाठक
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-7 गाजियाबाद।

Ref: 90

6

सेवा में
मुख्य चिकित्साधिकारी,
मेरठ।

द्वारा,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय: उ० प्र० से बाहर इलाज कराने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की सम्बन्ध में।

भाहोदय,

सादर निवेदन है कि अपर सिविल जज (जूडि) कोर्ट संख्या-2, मेरठ के पर
अपर कार्यरत रहने के दौरान मुझे वर्ष 2006 में ब्लड कैंसर हुआ था जिसका इलाज
जनपद मेरठ में कराया जाना सम्भव नहीं था और जिसका उपचार विशेष चिकित्सा
संस्थान द्वारा किया जाना अपेक्षित था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपना पत्र
दिनांकित 30.08.2010 द्वारा विशिष्ट चिकित्सा संस्थान को रेफर करने वाले अधिसूचना
मेडिकल अटेंडेंट का रिफेंस मॉगा गया है।

अतः निवेदन है कि मुझे उ० प्र० से बाहर अपना इलाज कराने हेतु अनुमति
प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

R.T.O

मूलरूप में इस आशय से उद्धृष्ट है कि

वर्ष 2006 में (AML) का उपचार आज दिनांक
12/10/2010 तक श्री जिला चिकित्सालय, मेरठ
न बाला लाइफ लाइन साथ मेडिकल कालेज, मेरठ में
उपलब्ध नहीं है।

भवदीया


(शिखा पाठक)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-7, गाजियाबाद।

संलग्नक:
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरठ 12/10/10

Incassment No. 31042 / Dt. 9-7-2010

Forwarded to: मुख्य चिकित्सा अधिकारी

मेरठ

9 District J...
Ghaziabad

09/11/10

Reg-90

7

प्रेषक,

शिखा पाठक
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या--07, गाजियाबाद।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजियाबाद।

द्वारा: माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय: चिकित्सीय प्रपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर कराए जाने के सम्बन्ध में:

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 08-06-2010 से दिनांक 01-09-2010 तक एएमएल-एम 3 का इलाज अखिल भारतीय आरुविज्ञान संस्थान, 46 दिल्ली में भर्ती रहकर कराया गया है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा दिनांक 15-06-2010 को रेफर आदेश पारित किया गया है। इलाज के सम्बन्ध में आर खर्च का भुगतान प्राप्त करने हेतु चिकित्सीय प्रपत्रों का प्रतिहस्ताक्षरित होना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त अराल चिकित्सीय सम्बन्धित प्रपत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न किए जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की कृपा करें। जिससे चिकित्सीय सम्बन्धित भुगतान प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही शमल में लायी जा सके।

भवदीय,

Shikha
27/9/10

(शिखा पाठक)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या--07, गाजियाबाद।

दिनांक: 23-09-2010

संलग्नक :

- 1- असल चिकित्सीय प्रपत्र
- 2- कुल पेज असल बिल 224
- 3- रेफर आदेश

Document No. 3291/E 28.5.2010
Forwarded to: मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजियाबाद।

2-11

25/11/10

8

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 25/11/10 को आयोजित मण्डलीय/राज्य चिकित्सा परिषद उ०प्र०, लखनऊ की बैठक की कार्यवाही श्री/श्रीमती/सुश्री श्रीका पाठक अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या - 07 गाजियाबाद के सम्बन्ध में।

Shilpa Pathak मा० अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-7, गाजियाबाद के पत्र संख्या : 27594 दिनांक 14.10.10 के संदर्भ में श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अपने उपचार सम्बन्धी अभिलेखों तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र जो कि धर्मशिला हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, दिल्ली तथा ऐम्स, नई दिल्ली द्वारा निर्गत हैं, सहित राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुयी। चिकित्सा परिषद द्वारा श्रीमती शिखा पाठक का स्वास्थ्य परीक्षण तथा चिकित्सा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त के आधार पर इनके द्वारा उक्त संस्थान में कराये गये उपचार हेतु शासनादेश संख्या : 25/15/6-97(294)/96 दिनांक 01.01.1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त दावे का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त देय धनराशि का ही किया जाए।

अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद उ०प्र०, लखनऊ

अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ
चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।

संख्या : - B-7/10/15906

दिनांक : 25/11/10
16/12/10

- 1- मूल रूप में मा० अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-7, गाजियाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में संलग्नको सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (संलग्नक - उपरोक्तानुसार)।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी,
लखनऊ।

Reg: 90

Annexure-2

Registered Post

From,
Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

9

To,
The District Judge,
Ghaziabad.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:

Sub: Regarding submission of medical reimbursement claim against the medical advance, amounting to Rs.9,00,000.00 earlier sanctioned by the Government of U.P. to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

Sir,

I am directed to refer the Court's letter no.4125/IV-3226/Admin-A-1 Sec., Dated: 02.04.2009, on the above subject, and to say that Smt. Shikha Pathak has not re-submitted her medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00 and Rs.1,46,610.00 against the medical advance, amounting to Rs.9,00,000.00 after removing the objection as pointed out through Govt. letter no.346/II-4-09-53(04)/07, dated 11.02.2009. Moreover, she has also not submitted medical reimbursement claim for remaining amount of medical advance i.e. Rs.2,00,919.00.

I am therefore to request you kindly to ask Smt Shikha Pathak to re-submit her complete medical reimbursement claim, against the medical advance, amounting to Rs.9,00,000.00 sanctioned by the Government through memorandum no.728/II-4-08-53(4)/2007, Lucknow, dated 20th march 2008, to the Court, at an very earlier date, so that necessary action may be taken in the matter.


Yours Faithfully

Joint Registrar

No. 11272/IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 20-7-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Govt. of U.P., Lucknow.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.


14/7/2010
Joint Registrar
&
14/7/10

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No.

/IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

Sub:

Regarding medical advance, amounting to Rs.5,00,000=00 to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of application dated 14.06.2010 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad alongwith its enclosures and to say that earlier Smt. Shikha Pathak was sanctioned Rs.9,00,000.00 as medical advance vide office memorandum no.728/II-4-08-53(4)/2007, Lucknow, dated 20th march 2008 by the Govt. The medical reimbursement claim has not been sanctioned to her against the said medical advance as she did not submit her claim for Rs.5,52,471.00 and Rs.1,46,610.00 after removing the objections as pointed out vide Govt. letter no.346/II-4-09-53(04)/07, dated 11.02.2009 and she has also not submit the medical reimbursement claim in respect of remaining amount, amounting i.e. Rs.2,00,919.00.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders, in respect of medical advance of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, from the Government and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above

(containing 10 leaves)

Yours Faithfully

Joint Registrar

No. 11270 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 20-7-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.2083/I, dated 15.06.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad.

S. Bahadur
14/7/10
Joint Registrar

14/7

Registered Post

Reg-90

913
6.9.10

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:

Sub: Regarding medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00 to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

Sir,

In continuation of Court's letter no.11269/IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:20.07.2010, I am directed to send herewith a copy of application dated 19.07.2010 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad alongwith its enclosures in connection with medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00, for her treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders, in respect of medical advance of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, from the Government and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing 4 leaves)

Yours Faithfully

Joint Registrar

No. 13889 /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 31-8-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.2381/I, dated 21.07.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

S. Bahadur
27/8/2010
Joint Registrar
27/8/10

Handwritten signature in Hindi

D.S.
6/9/2010
DISTRICT JUDGE
GHAZIABAD

Handwritten text in Hindi:
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
Smt. Shikha Pathak,
Additional Chief Judicial Magistrate -VII,
Ghaziabad.

Handwritten signature and text in Hindi

Appointment Sec - Desk 1
24

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Ghaziabad.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

Sub: Reimbursement of medical expenses, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00, Rs.17,846.00 and Rs.35,514.00 =Rs.8,94,151.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, incurred in the treatment of Acute Myeloid Leukemia- M-3 (Blood Cancer) at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi and Indrapratha Apollo Hospital, New Delhi for the period from, 28.12.2006 to 07.02.2007, 07.03.2007 to 31.03.2007, 23.04.2007 to 08.05.2007, 28.12.2006 to 07.02.2007 and 26.12.2006 to 27.12.2006 respectively.

Sir,

With reference to your endorsement dated 2529/I, 31.07.2010, on the above subject I am directed to return here original bill /vouchers and other relevant papers (containing 429 leaves) in respect of medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00, Rs.17,846.00 and Rs.35,514.00 =Rs.8,94,151.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad and to say that Smt. Pathak has not send the reference of the authorized medical attendant through which she was referred to (विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) as required by the Government in its letter dated 11.02.2009 and also the claims are not preferred according to check list given in para 8 of Govt. order no. 1209/V-6-2004-294/96, T.C., dated 09.08.2004.

I am therefore to request you kindly to ask Smt. Pathak to resubmit her medical reimbursement claims, after enclosing the reference of authorized medical attendant through which she was to referred (विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) for treatment, as desired by the Government through letter dated 11.02.2009 and after completing all the formalities given para 8 (check list) of Govt. order no. 1209/V-6-2004-294/96, T.C., dated 09.08.2004, to this Court, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above

Yours Faithfully

(containing 429 leaves)

Joint Registrar

No. 13887 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 31-8-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Govt. of U.P., Lucknow.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad.

S. Bahadur
27/8/2010
Joint Registrar

8
27/8/10

Reg-90

13

Registered Post

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:
Sub: Regarding medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00 to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

Sir,

In continuation of Court's letter no.11269/IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:20.07.2010, I am directed to send herewith a copy of application dated 19.07.2010 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad alongwith its enclosures in connection with medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00, for her treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders, in respect of medical advance of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, from the Government and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing 4 leaves)

Yours Faithfully

Joint Registrar

No. 13889 /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 31-8-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.2381/I, dated 21.07.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

Bahadur
27/8/2010
Joint Registrar

27/8/10

Sushil Kumar,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

Rev-90

19

To,

The District Judge,
Ghaziabad.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

Sub: ~~Reimbursement of medical expenses, amounting to Rs.23,816.00 and Rs.35,514.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, incurred in the treatment of Acute Myeloid Leukemia- M-3 (Blood Cancer) at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi and Indrapratha Apollo Hospital, New Delhi for the period from 26.12.2006 to 27.12.2006 and 28.12.2006 to 07.02.2007.~~

Sir,

With reference to your endorsement dated 4120/I, 20.12.2010, on the above subject I am directed to return herewith original bill /vouchers and other relevant papers in respect of medical reimbursement claim, amounting to Rs.23,816.00 and Rs.35,514.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad and to say that the medical reimbursement claims, amounting to Rs.35,514.00 and Rs.23,816.00 for the period from 26.12.2006 to 27.12.2006 and 28.12.2006 to 07.02.2007 are neither verified nor sanction-able amount is mentioned by the Additional Director, Medical Health & Family Welfare, Meerut Div., Meerut on the Essentiality Certificate as well as in the Calculation memo.

I am therefore to request you kindly to ask Smt. Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate-VII, Ghaziabad to resubmit the medical reimbursement claims after getting verified both the claims by the Additional Director, Medical Health & Family Welfare, Meerut Div., Meerut and sanction-able amount is mentioned on the Essentiality Certificates as well as in the Calculation memo by the Additional Director, Medical Health & Family Welfare, Meerut Div., Meerut.

Encl. As above
(containing leaves)

Yours Faithfully,

Joint Registrar

No. 3705 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 28-2-2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Govt. of U.P., Lucknow.

2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad.

Sushil Kumar
22.2.2011
Joint Registrar

21/2/11

जल विप
R... 10/11/11
R... 11/11

Reg-90

Registered Post

From,

Sushil Kumar,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

230
4.3.2011 15

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:

Sub: Reimbursement of medical expenses, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00; to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) 28.12.2006 to 07.02.2007, 07.03.2007 to 31.03.2007, 23.04.2007 to 08.05.2007 at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi.

Sir,

With reference to the Government letter no.2484/II-4-2010-53(4)/2007, dated 18.10.2010, on the above subject I am directed to send herewith a copy of letter dated 06.10.2010 alongwith original bill /vouchers and other relevant papers in respect of medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) 28.12.2006 to 07.02.2007, 07.03.2007 to 31.03.2007, 23.04.2007 to 08.05.2007 at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders from the Government in respect of medical reimbursement claim of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing leaves)

Yours Faithfully,

Joint Registrar

No. 3703 /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 28.2.2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1 The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.4120/I, dated 20.12.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

stn
encls. are not attached

Inform the officer concerned. ✓

District Judge
Ghaziabad
04.3.11

Sushil Kumar
22.2.2011
Joint Registrar

Sh. Shikha Pathak
Acem (M)

Handwritten signature

Reg-90

16

Registered Post

From

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad

To

Sri Sanjal Kumar Pathak,
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi,
Ghaziabad.

No. 1034 /IV-3226/Admin-A-1 Sec

Dated: 19-5-2012

Sub: Reimbursement of medical expenses of Late Smt. Shikha Pathak, Ex-
Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir,

With reference to your letter dated 25.03.2012, on the above subject it is to inform you the medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00 had already been sanctioned by the Government through Government order no.511/1-4-2011-53(4)/2007, dated 08.09.2011 (copy enclosed for ready reference) and the medical reimbursement claim, amounting to Rs.8,18,237.00 of Late Smt. Shikha Pathak had been sent to the Government through Court's letter no.19607/ Admin A-1 Sec., dated 23.12.2011 for taking necessary action.

Encl:- As above

Yours Faithfully,

Maharani Din
14.5.12

Deputy Registrar

AS
10/5/12

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec

Dated:

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec-4, Government of U.P., Lucknow
2. The District Judge, Ghaziabad.
3. The Deputy Registrar (B), High Court, Allahabad alongwith copy of Govt. Order dated 08.09.2011

Deputy Registrar

सेवा में,

अध्यक्ष मण्डलीय चिकित्सा परिषद/
अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पत्र 00

Annexure-3

17

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय- चिकित्सीय प्रपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर कराये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरी पत्नी श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-07, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05-06-2010 से दिनांक 16-6-2010 तक ए0एम0एल0- एम-3 का इलाज धर्मशिला अस्पताल दिल्ली में भर्ती रहकर कराया गया है। मेरी पत्नी श्रीमती शिखा पाठक द्वारा दिनांक 08-06-2010 से दिनांक 01-09-2010 तक ए0एम0एल0-एम-03 का इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में भी भर्ती रहकर कराया गया है। उपरोक्त दोनो संस्थानों में कराए गए उपचार हेतु शासनादेश संख्या 3975/05-06-1997(294)/96 दिनांक 01-01-1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने विषय पत्र दिनांकित 25-11-2010/16-12-2010 कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ से मुझे दिनांक 26-02-2011 को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त दोनो इलाज के सम्बन्ध में आये खर्च का भुगतान प्राप्त करने हेतु सभी चिकित्सीय प्रपत्रों का प्रतिहस्ताक्षरित होना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त असल चिकित्सीय प्रपत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न किये जा रहे हैं। श्रीमती शिखा पाठक का 07.03.11 को निदान हो गया।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सभी प्रपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की कृपा करें जिससे चिकित्सीय सम्बन्धी भुगतान प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

भवदीया

(संजय पाठक)

पति स्व0 श्रीमती शिखा पाठक
के0ए0-14/2, कोशाम्बी, गाजियाबाद।

दिनांक 11.3.11

संलग्नक-

- 1- असल चिकित्सीय प्रपत्र ।
- 2- कुल पेज असल बिल 18 (धर्मशिला अस्पताल दिल्ली)
- 3- रैफर आदेश ।

एवं

- 1- असल चिकित्सीय प्रपत्र ।
- 2- कुल पेज असल बिल 224(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली)
- 3- रैफर आदेश ।

7037
14.3.2011
RECEIVED
अध्यक्ष, मण्डलीय चिकित्सा परिषद, अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
(4)

Reg-90

18

From,
 Sanjai Kumar Pathak
 H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM-VIIth, Ghaziabad
 KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
 Mobile: 91-9958999737, 9868262260, Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,
 Addl. Director
 Medical, health and family welfare
 Meerut Division, Meerut

06.05.2011

Through,
 The District Judge, Ghaziabad

Reference: Your letter no. 2140/12/ chiki. Vyay pratipurti/2011
 Section- 12 • Meerut, dated 15.4.2011

Dear Sir,

In reply to the objections mentioned in the abovementioned letter, find enclosed hereunder the following documents desired by you;

1. Original discharge summary from Dharamshila Hospital for the period 5.6.2010 to 8.6.2010
2. Original discharge summary from AIIMS for the period 8.6.2010 to 1.9.2010.
3. The original bills corresponding to the receipts as below
 - i. Bill dated 1.9.10 generated at the time of discharge mentions the advance payment of Rs. 18,000/- vide receipt no. 299735 dated 8.6.2010.
 - ii. Bill dated 29.06.10 for payment of Rs. 46980/- vide receipt no. 301037 dated 29.06.2010.
 - iii. Bill dated 20.07.10 for payment of Rs. 47365/- vide receipt no. 302867 dated 20.07.2010.
 - iv. Bill dated 03.08.2010 for payment of Rs. 26564/- vide receipt no. 303829 dated 03.08.2010. The amount paid i.e. Rs. 26564/- is mentioned in the circle.
 - v. Bill dated 26.08.2010 for payment of Rs. 40876/- vide receipt no. 305675 dated 26.08.2010.

Thus, all the documents required by you are annexed hereunder in original. The Original bills are also attached. Kindly consider this matter sympathetically and expedite the reimbursement.

Kindly acknowledge receipt.

Regards


 Sanjai Kumar Pathak

Recd.

18.05.11

Rev: 90
19**From,**

Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,

**Hon'ble the Chief justice
High Court of Judicature at Allahabad**

30.10.2012

Subject: Medical bill reimbursement of my wife Late Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad.

Most Respected Sir,

My wife Mrs. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VII, Ghaziabad was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) since December 2006. She died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment.

She was hospitalised for the treatment in the years 2007, 2010 and 2011. All the medical bills of late Shikha Pathak, in original, have already been submitted and duly acknowledged. The amount of bills and the sanction granted so far are given below;

Year 2007

- | | | |
|----|------------------------|--------------------------------|
| 1. | BILL AMOUNT 6,88,901/- | Amt. SANCTIONED Rs. 5,52,471/- |
| 2. | BILL AMOUNT 1,91,133/- | Amt. SANCTIONED Rs. 1,46,610/- |
| 3. | BILL AMOUNT 1,20,799/- | Amt. SANCTIONED Rs. 79,778/- |
| 4. | BILL AMOUNT 23,816/- | Amt. SANCTIONED Rs. 17,846/- |

YEAR 2010

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 5. | BILL AMOUNT Rs. 8,18,237/- | Amt. SANCTIONED Rs. 7,46,673/- |
|----|----------------------------|--------------------------------|

YEAR 2011

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 6. | BILL AMOUNT Rs. 5,67,307/- | No information so far |
|----|----------------------------|-----------------------|

Till date even the sanctioned amount has not been disbursed.

I am constrained to write to you in view of the casual approach of the concerned officers. Instead of informing the current status of reimbursement or taking steps for disbursement of sanctioned amount, the Registrar (M) has simply attached a copy of sanction letter dated 14.05.2012 which I had submitted for his consideration. The copy of letter with annexures sent by me and its reply by the Registrar is annexed herewith.

The sum total of the reimbursement claim is Rs. 24,10,193/-, and an amount of Rs. 9 lakhs has to be deducted therefrom which was paid to Smt. Shikha Pathak in 2007 as medical advance. Thus, the balance amount of approx. Rs. 15,10,193/- (fifteen lakhs ten thousands one hundred and ninety three) is due to be paid to me.

I have neither been communicated nor could I see any reason for this inordinate delay in reimbursement.

Kindly look into the matter and expedite.

Kindly acknowledge receipt.

Regards

Sanjai Kumar Pathak

D.A-90

21

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad

To,
Sri V.C. Gupta
Hon'ble the District Judge, Ghaziabad

30.04.2011

Reference: Letter no. 3705/ IV-3226?Admin-A-1 Sec dated 28.02.2011 by
Joint Registrar(M) High Court of Judicature at Allahabad

Subject: Reimbursement of medical expenses

Respected Sir,

You are aware that Mrs. Shikha Pathak, ACJM-VII, Ghaziabad left for heavenly abode on 07.03.2011. The undersigned is husband of Late Shikha Pathak.

With reference to the abovementioned letter, I have to submit that according to G.O. no. 1209/five-6-2004-294/96. T.C. dated 9.8.2004, the verification of the medical claim upto forty thousand rupees is to be done by the Chief Medical Officer and the verification of the medical claim from forty thousand to one lakh rupees is to be done by the Medical Superintendent of the referring Hospital. It is pertinent to mention that late Shikha Pathak had submitted the bills for verification and the bills were sent for verification which is evident from letter no. 331/Ac/D.J./Ghaziabad dated 19.07.2008 by your office, however the bills were returned without verification.

I am also submitting medical bills (OPD) amounting to Rs. 8940/- in original for reimbursement because the same process of refund shall be applicable.

I am submitting the original bills with this letter with a request to take appropriate steps of verification of bills at your level and thereafter send the bills for payment.

Kindly acknowledge receipt and expedite the matter.

Regards

Sanjai Kumar Pathak
Contact no. 9868262260

Raj 90

22

From,

Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
Address: I-401, Vivek Vihar, Sector-82
NOIDA-201305

To,

**Hon'ble the District and Session Judge,
Ghaziabad**

28.03.2013**Subject: CHANGE OF ADDRESS**

Urgent

Respected Sir,

The reimbursement of medical bills of my wife late Shikha Pathak, the then ACJM-VII Ghaziabad are pending since 2011.

Kindly take notice that I am shifting my residence from existing KA-14, SF, Kaushambi, Ghaziabad to the following address:

I-401, VIVEK VIHAR, SECTOR-82, NOIDA-201305

You are, therefore, requested to update my new address in your records for all future correspondences.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Regards

Sanjai Kumar Pathak
Contact no . 9958999737

12-1-20

23

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
Address: I-401, Vivek Vihar, Sector-82
NOIDA-201305

To,

**The Registrar General
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad, U.P.**

28.03.2013

Subject: CHANGE OF ADDRESS

Urgent

Respected Sir,

The reimbursement of medical bills of my wife late Shikha Pathak, the then ACJM-VII Ghaziabad are pending since 2011.

Kindly take notice that I am shifting my residence from existing KA-14, SF, Kaushambi, Ghaziabad to the following address:

I-401, VIVEK VIHAR, SECTOR-82, NOIDA-201305

You are, therefore, requested to update my new address in your records for all future correspondences.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Regards

Sanjai Kumar Pathak
Contact no . 9958999737

जन्मद-पापावरीश

Annexure-4

Page 30
9 29

आतिपाकाद

अनुभाग- (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति)

विषय: श्री मति शिवाजी पाठक अर्धर चिकित्सा जन्म पर प्रतिहस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

दिनांक 22/11/09 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 530/नेल्पा/डीजे/09 दिनांक 16-2-09 के सन्दर्भ में कहना है कि श्री मति शिवाजी पाठक अर्धर रोग इन्होंने प्रदेश के भीतर ही दिनांक से पीड़ित थे।

चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति प्राप्त नहीं की थी/है और न ही परन्तु मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदेश के भीतर हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त की थी/है। अतः चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 के अन्तर्गत आप अपने स्तर से मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त कराने हेतु अध्यक्ष/सचिव, मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उक्त दावा संदर्भित करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रदेश से बाहर दिनांक 23-4-07 ए 8-5-07 तक धर्मशाला

एडमिशन कराया था।

काराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्राप्त नहीं की थी/प्राप्त की है अतः आप अपने स्तर से चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान कराने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त नहीं की है। अतः आप अपने स्तर से उक्त दावा अध्यक्ष/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु संदर्भित करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा अनुमति/कार्योत्तर अनुमति/राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्रदान किए जाने की दशा में शासन के प्रतिबन्धों के अधीन प्राप्त दावा रूपये 120799=00 (शब्दों में 120799 की मात्रा में) को चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-2428/5-7-97/294/1996 दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 1209/पाँच-6-2004-294/96 टी0सी0 दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त रूपये 79778=00 (शब्दों में 79778 की मात्रा में) देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित की जाती है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित है।

सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप अपने विभागाध्यक्ष से/शासन के प्रशासनिक विभाग से आपेक्षित स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

संलग्न-यथोपरि।

मूलकाव

अपर निदेशक

आंकन संख्या-

/12/चिकि0 व्यय प्रतिपूर्ति/

/200 -200 तददिनांक

तिलिपि- श्री मति शिवाजी पाठक अर्धर चिकित्सा जन्म (जू० सं०) कोर्टो-1

आतिपाकाद को प्रेषित

Smt. Shri. Shrivastava & Co. Chartered Accountants, C.No. 1234

अपर निदेशक

25

प्रेषक,

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

अनुभाग-पारिवारिक
आतिथ्यालय

अनुभाग- (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति)

विषय:- श्री मीत विरला पाहक, ऊपर विरला जज

दिनांक 2/4/09

के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे

पर प्रतिहस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 530/लेटर/डीजे/09 दिनांक 16-2-09 के सन्दर्भ में कहना है कि श्री मीत विरला पाहक, ऊपर विरला जज से पीड़ित थी, इन्होंने प्रदेश के भीतर ही दिनांक

तथा इन्होंने किसी राजकीय चिकित्सालय से हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति प्राप्त नहीं की थी/है और न ही/परन्तु मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदेश के भीतर हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त की थी/है। अतः चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 के अन्तर्गत आप अपने स्तर से मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त कराने हेतु अध्यक्ष/सचिव, मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उक्त दावा संदर्भित करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रदेश से बाहर दिनांक 23-4-07 ए 8-5-07 तक का

हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने का आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

में अपना उपचार कराना था/है। इन्होंने प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्राप्त नहीं की थी/प्राप्त की है अतः आप अपने स्तर से चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान कराने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त नहीं की है। अतः आप अपने स्तर से उक्त दावा अध्यक्ष/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु संदर्भित करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा अनुमति/कार्योत्तर अनुमति/राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्रदान किए जाने की दशा में शासन के प्रतिबन्धों के आधीन प्राप्त दावा रूपये 120799=00 (शब्दों में एक लाख बीस हजार सात सौ अठ्ठावन मात्र) को चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-2428/5-7-97/294/1996 दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 1209/पाँच-6-2004-294/96 टी0सी0 दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त रूपये 79778=00 (शब्दों में अठ्ठावन हजार सात सौ अठ्ठावन मात्र) देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित की जाती है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित है।

सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप अपने विभागाध्यक्ष से/शासन के प्रशासनिक विभाग से आपेक्षित स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

संलग्न-यथोपरि।

रुमलदास

अपर निदेशक

मेरठ मण्डल

प्रेषक,

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
मेरठ मण्डल मेरठ।

26

सेवा में,

जन्मद साधा दा/श
शाहिजाबाद

अनुभाग- (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति) दिनांक 20-6-2011
विषय- इलाहाबाद शाहिजाबाद पोली जोग VII th के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे पर प्रतिहस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1838 I दिनांक 18-5-11 के सन्दर्भ में कहना है कि शाहिजाबाद केदार राउ से पीड़ित थे/थी, इन्होंने प्रदेश के भीतर ही दिनांक

तथा इन्होंने किसी राजकीय चिकित्सालय से हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति प्राप्त नहीं की थी/है ओर ना ही/परन्तु मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदेश के भीतर हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त की थी/है। अतः चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 के अन्तर्गत आप अपने स्तर से मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त कराने हेतु अध्यक्ष/सचिव, मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उक्त दावा संदर्भित करने का कष्ट करें।

~~इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रदेश से बाहर दिनांक 5-6-2011 से 8-6-2011 तक 4 मरीजों को एम्बुलेंस से दिल्ली से आवासीय क्षेत्र तथा 8-6-2011 से 1-9-2011 तक एम्बुलेंस से दिल्ली से आवासीय क्षेत्र~~

अपना उपचार कराया था/है। इन्होंने प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्राप्त नहीं की थी/प्राप्त की है अतः आप अपने स्तर से चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान कराने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त नहीं की है। अतः आप अपने स्तर से उक्त दावा अध्यक्ष/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु संदर्भित करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा अनुमति/कार्योत्तर अनुमति/राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्रदान किए जाने की दशा में शासन के प्रतिबन्धों के आधीन प्राप्त दावा रूपये 859415 = 00 (शब्दों में आठ लाख 58 हजार 415 मात्र) को चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-2428/5-7-97/294/1996 दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 1209/पाँच-6-2004-294/96 टी0सी0 दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त रूपये 818237 = 00 (शब्दों में आठ लाख 18 हजार 237 मात्र) देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित की जाती है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित है।

सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप अपने विभागाध्यक्ष से/शासन के प्रशासनिक विभाग से आपेक्षित स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

संलग्न-यथोपरि।

मुलावत

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मेरठ मण्डल मेरठ

प्रेषक,

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

27

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 8-9-
अमस्त, 2011

विषय:- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय-धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं०-3702/चार-3226/एडमिन-ए-1-सेक दिनांक 28.2.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश सं०-1209/पाँच-6-2004/96 टी.सी. दिनांक 9.8.2004 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर धर्मशीला कैंन्सर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, देहली में दिनांक 28.12.2006 से 07.2.2007 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू० 5,52,471/- (रू० पाँच लाख बावन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-728/दो-4-08-53 (4)/07 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू० 9,00,000=00 (रू० नौ लाख मात्र) के सापेक्ष समायोजित की जायेगी।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा अग्रिम के अतिरिक्त कोई और अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम की वसूली श्रीमती शिखा पाठक से कर ली जाय। प्रश्नगत बिल वाउचर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश-49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2)1171/X/11 दिनांक-16.8.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या-511(1)/दो-4-2011-53(4)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव

(2)

Rear: 90

२८

पंजीकृत

संख्या-3344/दो-4-2011-53(4)/2007

प्रेष

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

4-12

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2012

विषय:- स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (एम) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-19607/चार-3226/एडमिन (ए-1) सेक दिनांक 23.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08.6.2010 से 01.9.2010 तक कूराई गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू०= 7,46,673=00 (रू० सात लाख छियालिस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-728/दो-4-08-53(4)/2007 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू०= 9,00,000=00 (रू० नौ लाख मात्र) में से शासनादेश संख्या-511/दो-4-2011 53(4)/2007 दिनांक 8.9.2011 द्वारा रू० 5,52,471/- का समायोजन किया जा चुका है। अतः अब अवशेष अग्रिम रू०= 3,47,529/- का समायोजन उक्त स्वीकृति में से करते हुए अवशेष धनराशि रू० 3,99,144/- (रू० तीन लाख निम्नानवे हजार एक सौ चवालिस मात्र) का भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो। यदि कोई अन्य चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो तो उसका भी समायोजन कर लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस धनराशि का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत 'शिखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-09 पारिवारिक न्यायालय-49 चिकित्सा व्यय' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2) 410/X/12 दिनांक 01.5.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

Car

5/12/12

Registered Post

From,

S.S. Gautam,
Deputy Registrar.(M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To

The District Judge,
Ghaziabad

No. 14590/IV-3226/ Admin A-1 Sec.,

/ Dated: 10-10-2014
~~September, 2014~~

Subject: Regarding Medical reimbursement claims, of Late Smt Sikha Pathak, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir

With reference to your letter No.152/Lekha/D.J./Ghaziabad, dated: 03.06.2014, I have to say the following :

1. Medical advance of Rs. 9,00,000.00 was sanctioned to Smt. Sikha Pathak through G.O.M. No. 728/II-4-08-53(4)/07, dated 20.03.2008
2. Medical reimbursement claim amounting to Rs.23,816.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007) and amounting Rs.35,514.00 (for the period from 26.12.2006 to 27.12 2006) was received to this Court, but the same was returned through Court's letter No. 12832/IV-3226/Admin A-1 sec./dated 04.10.2008 with the request to resubmit the claim after technical examination of Additonal Director,medical health and family welfare of the concerned division.
3. Medical reimbursement claim amounting to Rs.5,52,471.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007) and amounting to Rs.1,46,610.00 (for the period from 07.03.2007 to 31.03.2007) was sent to the Government through Court's letter No.1342/IV-3226/Admin A-1 Sec./ dated 30.01.2009, and the same was returned by the Government through its G.O.M. No.346/2-4-09055(04)/07 dated 11.02.2009 with the objection that resubmit the claim after enclosing the reference letter of the competent authorized Doctor referring to the specialized medical institution and the same was returned to District Judge, Ghaziabad through Court's letter No.4125/IV-3226/Admin A-1 sec./ dated 02.04.2009.
4. Medical reimbursement claims amounting to Rs.5,52,471.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02.2007), Rs.1,46,610.00 (for the period from 07.03.2007 to 31.03.2007), Rs.79,778.00 (for the period from 23.04.2007 to 08.05.2007), Rs.17,846.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007) and Rs.35,514.00 (for the period from 26.12.2006 to 27.12 2006) was returned to the District Judge, Ghaziabad through Court's letter No.13886/IV-3226/Admin A-1 Sec./ dated 31.08.2010 as the same was received through

201-90

endorsement no.-2529/I, dated 31.07.2010 but medical reimbursement claim amounting to Rs.23,816.00(for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007) has not been received to this Court from the District Judge, Ghaziabad as the same has already been returned to the District judge, Ghaziabad through above mentioned Court's letter 12832, dated 04.10.2008.


5. Medical reimbursement claim amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00, Rs.23,816.00 and Rs.35,514.00 was received from District Judge, Ghaziabad through endorsement No.4120/I, dated 20.12,2010 of the District Judge, Ghaziabad, but the medical reimbursement claim amounting to Rs.17,846.00 has not been received through this letter from District judge, Ghaziabad, out of which medical reimbursement claim amounting to Rs.5,52,477.00, Rs.1,46,610.00, Rs. 79,775.00 has been sent to Government through Court's letter No.3702/IV-3226/Admin A-1 Sec./ dated 28.02.2011 and medical reimbursement claim amounting to Rs.23,816.00 and Rs.35,514.00 has been returned to the District judge, Ghaziabad with the request to resubmit the claims after ~~after~~ technical examination, of Additional Director, Medical Health and Family Welfare, Meerut Division, Meerut, through Court's letter No. 3704/IV-3226/Admin A-1 Sec./dated 28.02.2011.
6. Medical reimbursement claim amounting to Rs.5,52,471.00 has been sanctioned by the Government through G.O.m. no. 511/2-4-2011-53(4)/2007 dated 08.09.2011.
7. Medical reimbursement claim amounting to Rs.7,46,673.00 (for the period from 08.06.2011 to 01.09.2011) plus Rs.71,564.00 (for the period from 05.06.2011 to 08.06.2011) equals to 8,18,237.00 was sent to Government for its sanction, out of which medical reimbursement claim amounting to Rs.7,46,673.00 was sanctioned by the Government through its G.O.M. No.3344/2-4-2011-53(4)/2007, dated 14.05.2012 and medical reimbursement claim amounting to Rs.71,564.00 was returned to this Court through its G.O.M. No.899/II-4-2012-53(4)/2007, dated 14.05.2012, which has been returned to the District Judge, Ghaziabad, by the Court's letter No. 11085/IV-3226/Admin A-1 Sec./dated 27.07.2012, as the competent authority for sanctioning the same is the District Judge.

From the perusal of the above mentioned facts, it is hereby requested to your goodself to provide the current status, to this Court, regarding the following medical reimbursement claims of Late Smt Sikha Pathak, the then A.C.J.M., Ghaziabad :

- (a) Amounting to Rs.23,816.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007) and amounting Rs.35,514.00 (for the period from 26.12.2006 to 27.12 2006) returned to you, by the Court through Court's letter No. 3704/IV-3226/Admin A-1 Sec./dated 28.02.2011.
- (b) Amounting to Rs.71,564.00 (for the period from 05.06.2011 to 08.06.2011), returned to you, by the Court, through Court's letter No. 11085/IV-3226/Admin A-1 Sec./dated 27.07.2012.

Ref: 90

- (c) Amounting to Rs.17,846.00 (for the period from 28.12.2006 to 07.02 2007), returned to you, by the Court through Court's letter No.13886/IV-3226/Admin A-1 Sec./ dated 31.08.2010.
- (d) Also provide the ~~payment~~ ^{payment regarding} current status of medical reimbursement claims amounting to Rs.5,52,471.00 and Rs.7,46,673.0 sanctioned by the Government, after adjustment of sanctioned medical advance of Rs.9.00.000.00.


Your's Faithfully

 25.9.14
 Deputy Registrar(M)

137

No. 1459/IV-3226/ Admin A-1 Sec. / Dated: 10-10-2014 Registered Post
 September, 2014

Copy forwarded to the Under Secretary, Appointment Section - 4, Government of U.P., Lucknow along-with copy of letter dated 03.06.2014 of District Judge, Ghaziabad, with the request to provide the current status of the medical reimbursement claim amounting to Rs.1,46,610.00 (for the period from 07.03.2007 to 31.03.2007), Rs.79,778.00 (for the period from 23.04.2007 to 08.05.2007), sent to him from the Court through Court's letter No.3702/IV-3226/Admin A-1 Sec./ dated 28.02.2011(Copy enclosed for ready reference).

Encl. : As above


 22.9.14
 Deputy Registrar(M)

S.O. Admin A-1 / D.R.(M)


May like to see the letter dated 03.06.2014 of District Judge, Ghaziabad placed below at Fly 'A'.


With the approval of Sr. Registrar- (J)(Budget), may like to issue?


Sr. Registrar (B)

May like to approve the instanc-draft letter.


 18.9.14
 D.R.(M)


 15.09.14

Draft approved.

 22/9


 15/09/14.

① प्रज
जुल 21
15-7-14

Scanned
23-7-14
W.O. Encl

11522
IV/3226
166

22-7-14
Page 90

प्रेषक,
जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
प्रेषित,
महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

04/08/14
28/11/14
14-8-14

1393
18-7-14

पत्रांक 1522 / लेखा / डी0जे0 / गाजियाबाद दिनांक 03-06-14

विषय- स्व0 शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सीय दावों के सम्बन्ध में

2168
S.O. Adm M/A महोदय,

DR (M)
21-7-14

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि स्व0 शिखा पाठक तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के चिकित्सीय दावे क्रमशः अकंन 5,52,471/-रु0, 3,18,237/-रु0, 1,46,610/-रु0, 79,778/-रु0 एवं 17,846/-रु0 स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे, किन्तु अभी तक सम्बन्धित चिकित्सीय दावों में हुई आवश्यक कार्यवाही जनपद न्यायालय गाजियाबाद को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3
DRCM
w-p-c
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः

भवदीय,
जनपद न्यायाधीश
District Judge
Ghaziabad
3-6-14
2/6/14

21 JUL 2014

1-श्री संजय कुमार पाठक, पाते स्व0 शिखा पाठक, पूर्व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद आई-401, विवेक विहार, सैक्टर-82, नौएडा।

Shri S.K. Pandey
16/08/14

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

2011 मं 2011

Register No. 11523
File No. ... 3226
Serial No. ... 165

23.7.14

Page 90

Serial
23-7-14
Encl (25) page
C-226931408

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
Address: I-401, Vivek Vihar, Sector-82
NOIDA-201305, Mobile- 9958999737

28/07/14
14-8-14

To,
The Registrar General
High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad, U.P.

1405
18-7-14

12.07.2014

Subject: Undue delay in Medical Reimbursement/ Reminder

Respected Sir,

My wife Shikha Pathak was serving as ACJM-VII when she died on 07.03.2011 due to Blood Cancer. She was admitted in the Hospital in 2007, 2010 and 2011. The medical bills for the relevant periods have already been duly submitted by her and after her death by me.

202163

S.O. Admn M/O

Needless to mention that the treatment of cancer is very expensive but despite requests by my late wife, neither her medical bills were paid nor the advance was sanctioned when she needed it the most. However, her treatment was carried on with the help of family and friends. Some of the letters written by her for medical reimbursement etc are annexed as **Annexure-1. (Pg 3-8)**

DR(M)
217-14

In response thereto, she received several letters from the Office of the Joint Registrar, however, the medical reimbursement was not disbursed for the reasons known to the relevant authorities. Some of the letters sent by the Joint Registrar are annexed herewith as **Annexure-2. (Pg 9-16)**

(2)
DR(M)

After her death, I submitted the remaining bills and sent several letters and reminders for reimbursement of medical expenses but till date I have not been reimbursed the medical expenses. Copies of some letters written by me are annexed herewith as **Annexure-3. (Pg 17-23)**

anurag
11/11/14

In the meantime, communication from the Government indicated that some payments have been cleared and approved by the Government, However,

no disbursement has been made by the Ghaziabad Judgeship so far. Copies of the communication from Government which are in my knowledge are annexed herewith as **Annexure-4. (Pg 24-28)**

Under the facts and circumstances mentioned above, I request you to instruct the concerned officers to expedite the full payment of medical reimbursement due. I shall be highly obliged for your kind intervention in the matter for a time bound disposal.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

M-995899737

Email: pathaklawyer@rediffmail.com

CC; Hon'ble the Chief Justice
High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad, U.P.

Sanjai Kumar Pathak

To
 Shri Beche Lal
 Joint Registrar (M)
 High Court of Judicature at Allahabad
 Allahabad

PRIORITY

October 16, 2008

Through
 The District Judge
 Ghaziabad

VIA FAX/SPEED POST

Ref: Letter no 12832/IV-3226/Admin-A-1Sec/dated 4-10-08

Subject: Reimbursement of my medical expenses incurred while undergoing treatment for Acute Myeloid Leukemia at Dharamshila Cancer Hospital.

I have received the above communication and most humbly I wish to draw your attention to the following facts:

1. The total medical bills/vouchers submitted by me was to the tune of Rs 9, 64, 797/- (Rupees Nine Lakhs sixty four thousand and seven hundred ninety seven) and not for Rs 60, 000/- as mentioned in the above communication.
2. Kindly note that vide my letter dated 16-06-2008 I had submitted my above bills/vouchers to the District Judge, Ghaziabad. Copy of my letter is annexed hereto.
3. Vide his letter dated 18-06-08 District Judge, Ghaziabad had submitted my bills/voucher to the Medical Board, Meerut. Copy is annexed hereto.
4. Over here I wish to mention that I had also written to the Under Secretary, Appointment Section, Lucknow stating that since my maintenance therapy is still continuing I may be allowed to submit my remaining medical bills/vouchers by December 2008.
5. I also wish to mention that I had to run from pillar to post to understand the formalities regarding the submission of these medical bills. All the 8 requirements mentioned in paragraph 8 of the GO No. 1209/5V-6-2004/294 have been duly complied by me.
6. The above medical bills have been countersigned by the Medical Board, Meerut.
7. I shall be sending the Certificate of the State Medical Board, regarding permission to undergo treatment outside Uttar Pradesh, after acquiring the same at the earliest.

Sincerely,

SP
 Shikha Pathak
 ACJ-I, Ghaziabad

Endorsement No. 2507/E Dated 17-10-08
 Forwarded to Shri. Beche Lal Joint Registrar (M)
 Allahabad High Court Allahabad
uTB
 District Judge
 Ghaziabad

प्रेषिका:-

Rev-90

9

शिखा पाठक,
अपर सिविल जज जू. डि. §
कोर्ट सं०-1, गाजियाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय:- उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या- 728/घो-4-08-53 §4 § /
207 लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2008 के संदर्भ में प्रतिपूर्ति सम्बन्धी
चिकित्सा बिलों का प्रेषण।
=====

महोदय,

उपरोक्त वर्णित विषय के संदर्भ में मेरे द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति
कावा सम्बन्धी अपनी चिकित्सा व्यय के बिल §मूल प्रति§ 60 परत अंकन।, 20,799/
रुपये के आपके सेवा में प्रेषित किये जा रहे हैं, जो आपके द्वारा संस्तुति हेतु उप-
निदेशक, मंडलीय चिकित्सा, मेरठ मंडल, मेरठ को प्रेषित किये जाने हैं।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रेषित उक्त चिकित्सा व्यय
के मूल बिलों को संस्तुति हेतु उप-निदेशक, मंडलीय चिकित्सा परिषद मेरठ मंडल, मेरठ
को प्रेषित करने की कृपा करें।

सादर।

भवषीया

§शिखा पाठक§

अपर सिविल जज जू. डि. §
कोर्ट सं०-1, गाजियाबाद।

दि०- 12.02.2009

R.
13/02/09

Ref: 90

5

From
Shikha Pathak
Addl Chief Judicial Magistrate -7, Ghaziabad
Admitted in AIIMS since 8th June 2010 for treatment of BLOOD CANCER

TO
Shri Surendra Bahadur
Joint Registrar (M)
High Court of Judicature at Allahabad

29-Jul-10

URGENT

Through
The District Judge
Ghaziabad,

Through special messenger

No. 2529/10 Dated 3.7.2010

Sub: Re-submission of medical reimbursement claim
Ref: Your letter No. 11271/IV-3226/Admin-A 1 Sec dated 20-7-2010

Respected Sir:

Kindly take reference of your above letter. As directed by you I am re-submitting my Original medical bills for the treatment undergone by me for Blood Cancer in 2007. The following is the detail of all the bills being re-submitted by me:

1. Original Bill amounting to Rs 5,52,471/- Rupees five lakhs fifty two thousand four hundred seventy one (actual amount Rs 688901/-)
2. Original Bill amounting to Rs 1,46,610/- (rupees one lakh forty six thousand six hundred ten) (actual amounting to Rs 1,91,133/-)
3. Original Bill amounting to Rs 79,778/- (rupees seventy nine thousand seven hundred seventy eight) (actual bill amounting to rupees 1,20,799/-)
4. Original Bill amounting to Rs 17,846 (seventeen thousand eight hundred forty six) (actual amounting to Rs 23,816/-)

You are humbly and earnestly requested to do the needful.

Yours faithfully,
Shikha Pathak

Shikha
Cc: Under Secretary, Appointment Section-4, Lucknow.

2529/10 31.7.2010
The Under Secretary
Appointment Section-4, Lucknow.
[Signature]
31/7/10

प्रेषिका

Ref-90

6

शिखा पाठक
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-7, गाजियाबाद।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी,
मेरठ।

द्वारा

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय

उ० प्र० से बाहर इलाज कराने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि अपर सिविल जज (जूडि) कोर्ट संख्या-2, मेरठ के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मुझे वर्ष 2006 में ब्लड कैंसर हुआ था जिसका इलाज जनपद मेरठ में कराया जाना सम्भव नहीं था और जिसका उपचार विशेष चिकित्सा संस्थान द्वारा किया जाना अपेक्षित था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांकित 30.08.2010 द्वारा विशेष चिकित्सा संस्थान को रेफर करने वाले आधाराईज्ड मेडिकल अटेंडेंट का रिफ्रेंस मॉगा गया है।

अतः निवेदन है कि मुझे उ० प्र० से बाहर अपना इलाज कराने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

R.T.O

मूलरूप में इस आशय से सुचित है कि

रबन कैंसर (AML) का उपचार आज दिनांक 12/10/2010 तक श्री जिला चिकित्सालय, मेरठ व आल/लाहौर साय प्रैक्टिकल क्लिनिक, मेरठ में उपलब्ध नहीं है।

भवदीया

S.P.
(शिखा पाठक)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-7, गाजियाबाद।

संलग्नक:

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरठ पत्र संख्या-100/10

Incassment No. 31041 / Dt. 9-7-2010

Forwarded to: मुख्य चिकित्सा अधिकारी

मेरठ

9 District Judge
Ghaziabad 019110

प्रेषक,

शिखा पाठक
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या--07, गाजियाबाद।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजियाबाद।

द्वारा: माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय: चिकित्सीय प्रपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर कराए जाने के सम्बन्ध में:

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 08-06-2010 से दिनांक 01-09-2010 तक एएमएल-एम 3 का ईलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में भर्ती रहकर कराया गया है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा दिनांक 15-06-2010 को रेफर आदेश पारित किया गया है। ईलाज के सम्बन्ध में आए खर्च का भुगतान प्राप्त करने हेतु चिकित्सीय प्रपत्रों का प्रतिहस्ताक्षरित होना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त असल चिकित्सीय सम्बन्धित प्रपत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न किए जा रहें हैं।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की कृपा करें। जिससे चिकित्सीय सम्बन्धित भुगतान प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही शमल में लायी जा सके।

भवदीय,

Shikha
27/9/10

(शिखा पाठक)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या--07, गाजियाबाद।

दिनांक: 23-09-2010

संलग्नक :

- 1- असल चिकित्सीय प्रपत्र
- 2- कुल पेज असल बिल 224
- 3- रेफर आदेश

3291/E 28.9.2010
Andeent No.....
Forwarded to: मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजियाबाद।

2-11

25/11/10

8

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 25/11/10 को आयोजित मण्डलीय/राज्य चिकित्सा परिषद उ०प्र०, लखनऊ की बैठक की कार्यवाही श्री/श्रीमती/सुश्री श्रीका पाठक का मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या - 07 गाजियाबाद / के सम्बन्ध में।

मा० अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-7, गाजियाबाद के पत्र संख्या : 27594 दिनांक 14.10.10 के संदर्भ में श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अपने उपचार सम्बन्धी अभिलेखों तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र जो कि धर्मशिला हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, दिल्ली तथा ऐम्स, नई दिल्ली द्वारा निर्गत हैं, सहित राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुयी। चिकित्सा परिषद द्वारा श्रीमती शिखा पाठक का स्वास्थ्य परीक्षण तथा चिकित्सा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त के आधार पर इनके द्वारा उक्त संस्थान में कराये गये उपचार हेतु शासनादेश संख्या : 23715/16-97(294)/96 दिनांक 01.01.1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त दावे का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त देय धनराशि का ही किया जाए।

अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद उ०प्र०
लखनऊ

अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद उ०प्र०
लखनऊ

अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद उ०प्र०
लखनऊ

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।

संख्या : - B-7/10/15906

दिनांक : 25/11/10
16/12/10

- 1- मूल रूप में मा० अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-7, गाजियाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में संलग्नको सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (संलग्नक - उपरोक्तानुसार)।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी,
लखनऊ।

Reg: 90

Annexure-2

Registered Post

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

9

To,

The District Judge,
Ghaziabad.

No.

/IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

Sub: Regarding submission of medical reimbursement claim against the medical advance, amounting to Rs.9,00,000.00 earlier sanctioned by the Government of U.P. to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

Sir,

I am directed to refer the Court's letter no.4125/IV-3226/Admin-A-1 Sec., Dated: 02.04.2009, on the above subject, and to say that Smt. Shikha Pathak has not re-submitted her medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00 and Rs.1,46,610.00 against the medical advance, amounting to Rs.9,00,000.00 after removing the objection as pointed out through Govt. letter no.346/II-4-09-53(04)/07, dated 11.02.2009. Moreover, she has also not submitted medical reimbursement claim for remaining amount of medical advance i.e. Rs.2,00,919.00.

I am therefore to request you kindly to ask Smt Shikha Pathak to re-submit her complete medical reimbursement claim, against the medical advance, amounting to Rs.9,00,000.00 sanctioned by the Government through memorandum no.728/II-4-08-53(4)/2007, Lucknow, dated 20th march 2008, to the Court, at an very earlier date, so that necessary action may be taken in the matter.

Yours Faithfully

Joint Registrar

No. 11272/IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 20-7-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Govt. of U.P., Lucknow.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

S. Bahadur
14/7/2010
Joint Registrar

8
14/7/10

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

Reg-90

10

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No.

/IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

Sub:

Regarding medical advance, amounting to Rs.5,00,000=00 to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of application dated 14.06.2010 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad alongwith its enclosures and to say that earlier Smt. Shikha Pathak was sanctioned Rs.9,00,000.00 as medical advance vide office memorandum no.728/II-4-08-53(4)/2007, Lucknow, dated 20th march 2008 by the Govt. The medical reimbursement claim has not been sanctioned to her against the said medical advance as she did not submit her claim for Rs.5,52,471.00 and Rs.1,46,610.00 after removing the objections as pointed out vide Govt. letter no.346/II-4-09-53(04)/07, dated 11.02.2009 and she has also not submit the medical reimbursement claim in respect of remaining amount, amounting i.e. Rs.2,00,919.00.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders, in respect of medical advance of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, from the Government and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing 10 leaves)

Yours Faithfully

Joint Registrar

No.

11270

/IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

20-7-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.2083/I, dated 15.06.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad.

S. Bahadur
14/7/10
Joint Registrar
&
14/7

8-9-10

Reg-90

Registered Post

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

913
6. 8. 10

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:

Sub: Regarding medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00 to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

Sir,

In continuation of Court's letter no.11269/IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:20.07.2010, I am directed to send herewith a copy of application dated 19.07.2010 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad alongwith its enclosures in connection with medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00, for her treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders, in respect of medical advance of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, from the Government and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing 4 leaves)

Yours Faithfully,

Joint Registrar

No: 13889 /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 31-8-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.2381/I, dated 21.07.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

S. Bahadur
27/8/2010
Joint Registrar
27/8/10

Handwritten signature in Hindi

District Judge
6/9/2010
GHAZIABAD

व्यक्तिगत बाबत सुचनाएं एवं आदेश
Smt. Shikha Pathak,
C.No. 7.

Handwritten signature and stamp

Appointment Sec - Desk 1
4

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Ghaziabad.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

Sub: Reimbursement of medical expenses, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00, Rs.17,846.00 and Rs.35,514.00 =Rs.8,94,151.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, incurred in the treatment of Acute Myeloid Leukemia- M-3 (Blood Cancer) at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi and Indrapratha Apollo Hospital, New Delhi for the period from, 28.12.2006 to 07.02.2007, 07.03.2007 to 31.03.2007, 23.04.2007 to 08.05.2007, 28.12.2006 to 07.02.2007 and 26.12.2006 to 27.12.2006 respectively.

Sir,

With reference to your endorsement dated 2529/I, 31.07.2010, on the above subject I am directed to return here original bill /vouchers and other relevant papers (containing 429 leaves) in respect of medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00, Rs.17,846.00 and Rs.35,514.00 =Rs.8,94,151.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad and to say that Smt. Pathak has not send the reference of the authorized medical attendant through which she was referred to (विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) as required by the Government in its letter dated 11.02.2009 and also the claims are not preferred according to check list given in para 8 of Govt. order no. 1209/V-6-2004-294/96, T.C., dated 09.08.2004.

I am therefore to request you kindly to ask Smt. Pathak to resubmit her medical reimbursement claims, after enclosing the reference of authorized medical attendant through which she was to referred (विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) for treatment, as desired by the Government through letter dated 11.02.2009 and after completing all the formalities given para 8 (check list) of Govt. order no. 1209/V-6-2004-294/96, T.C., dated 09.08.2004, to this Court, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing 429 leaves)

Yours Faithfully

Joint Registrar

No. 13887 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 31-8-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Govt. of U.P., Lucknow.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad.

S Bahadur
27/8/2010
Joint Registrar

8
27/8/11

Reg: 90

13

Registered Post

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:

Sub: Regarding medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00 to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

Sir,

In continuation of Court's letter no.11269/IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:20.07.2010, I am directed to send herewith a copy of application dated 19.07.2010 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad alongwith its enclosures in connection with medical advance, amounting to Rs.10,00,000=00, for her treatment of Leukemia (Blood Cancer) at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders, in respect of medical advance of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, from the Government and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing 4 leaves)

Yours Faithfully

Joint Registrar

No. 13889 /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 31-8-2010

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.2381/I, dated 21.07.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

S. Bahadur
27/8/2010
Joint Registrar

27/8/10

Sushil Kumar,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

Reg-90

19

To,

The District Judge,
Ghaziabad.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:

Sub: ~~Reimbursement of medical expenses amounting to Rs.23,816.00 and Rs.35,514.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, incurred in the treatment of Acute Myeloid Leukemia- M-3 (Blood Cancer) at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi and Indrapratha Apollo Hospital, New Delhi for the period from, 26.12.2006 to 27.12.2006 and 28.12.2006 to 07.02.2007.~~

Sir,

With reference to your endorsement dated 4120/I, 20.12.2010, on the above subject I am directed to return herewith original bill /vouchers and other relevant papers in respect of medical reimbursement claim, amounting to Rs.23,816.00 and Rs.35,514.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad and to say that the medical reimbursement claims, amounting to Rs.35,514.00 and Rs.23,816.00 for the period from 26.12.2006 to 27.12.2006 and 28.12.2006 to 07.02.2007 are neither verified nor sanction-able amount is mentioned by the Additional Director, Medical Health & Family Welfare, Meerut Div., Meerut on the Essentiality Certificate as well as in the Calculation memo.

I am therefore to request you kindly to ask Smt. Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate-VII, Ghaziabad to resubmit the medical reimbursement claims after getting verified both the claims by the Additional Director, Medical Health & Family Welfare, Meerut Div., Meerut and sanction-able amount is mentioned on the Essentiality Certificates as well as in the Calculation memo by the Additional Director, Medical Health & Family Welfare, Meerut Div., Meerut.

Encl: As above
(containing leaves)

Yours Faithfully,

Joint Registrar

No. 3705 /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 28-2-2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Govt. of U.P., Lucknow.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad.

Sushil Kumar
22.2.2011
Joint Registrar
As
21/2/11

गणतंत्रिय
दि... 21/3/11

Reg-90

Registered Post

From,

Sushil Kumar,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

230
4.3.2011

15

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated:

Sub: Reimbursement of medical expenses, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00, to Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) 28.12.2006 to 07.02.2007, 07.03.2007 to 31.03.2007, 23.04.2007 to 08.05.2007 at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi.

Sir,

With reference to the Government letter no.2484/II-4-2010-53(4)/2007, dated 18.10.2010, on the above subject I am directed to send herewith a copy of letter dated 06.10.2010 alongwith original bill /vouchers and other relevant papers in respect of medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00, Rs.1,46,610.00, Rs.79,778.00 of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, for the treatment of Leukemia (Blood Cancer) 28.12.2006 to 07.02.2007, 07.03.2007 to 31.03.2007, 23.04.2007 to 08.05.2007 at Dharamshila Cancer Hospital & Research Center, Delhi.

I am therefore to request you to kindly to obtain necessary orders from the Government in respect of medical reimbursement claim of Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial magistrate -VII, Ghaziabad, and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl: As above
(containing leaves)

Yours Faithfully,

Joint Registrar

No. 3703 /IV-3226/Admin-A-1 Sec. Dated: 28-2-2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1/ The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.4120/I, dated 20.12.2010.
2. Smt. Shikha Pathak, Additional Chief Judicial Magistrate -VII, Ghaziabad.

stm
encls. are not attached.

3/3/11 Inform the officer concerned. ✓

Sushil Kumar
22.2.2011
Joint Registrar

AS
21/2/11

Sh. Shikha Pathak
ACJM (M)

District Judge
Ghaziabad
04-3-11

Handwritten signature

Ref: 90

16

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

Sri Sanjay Kumar Pathak,
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi,
Ghaziabad.

No. 7734 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 19-5-2012

Sub: Reimbursement of medical expenses of Late Smt. Shikha Pathak, Ex-
Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir,

With reference to your letter dated 25.03.2012, on the above subject it is
to inform you the medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00 had
already been sanctioned by the Government through Government order no 511/1-4-
2011-53(4)/2007, dated 08.09.2011 (copy enclosed for ready reference) and the
medical reimbursement claim, amounting to Rs.8,18,237.00 of Late Smt. Shikha
Pathak had been sent to the Government through Court's letter no.19607/ Admin A-1
Sec., dated 23.12.2011 for taking necessary action.

Encl - As above

Yours Faithfully,

Maharani Din

14.5.12

Deputy Registrar

AS
10/5/12

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated:

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Government of U.P., Lucknow
2. The District Judge, Ghaziabad.
3. The Deputy Registrar (B), High Court, Allahabad alongwith copy of Govt. Order dated 08.09.2011

Deputy Registrar

सेवा में,

अध्यक्ष मण्डलीय चिकित्सा परिषद/
अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Ref: 90

Annexure-3

17

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय- चिकित्सीय प्रपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर कराये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरी पत्नी श्रीमती शिखा पाठक, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-07, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05-06-2010 से दिनांक 16-6-2010 तक ए0एम0एल0- एम-3 का इलाज धर्मशिला अस्पताल दिल्ली में भर्ती रहकर कराया गया है। मेरी पत्नी श्रीमती शिखा पाठक द्वारा दिनांक 08-06-2010 से दिनांक 01-09-2010 तक ए0एम0एल0-एम-03 का इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में भी भर्ती रहकर कराया गया है। उपरोक्त दोनों संस्थानों में कराए गए उपचार हेतु शासनादेश संख्या 3975/05-06-1997(294)/96 दिनांक 01-01-1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने विषय पत्र दिनांकित 25-11-2010/16-12-2010 कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ से मुझे दिनांक 26-02-2011 को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त दोनों इलाज के सम्बन्ध में आये खर्च का भुगतान प्राप्त करने हेतु सभी चिकित्सीय प्रपत्रों का प्रतिहस्ताक्षरित होना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त असल चिकित्सीय प्रपत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न किये जा रहे हैं। श्रीमती शिखा पाठक का 07.03.11 को निधन हो गया।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सभी प्रपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की कृपा करें जिससे चिकित्सीय सम्बन्धी भुगतान प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

भवदीया

(संजय पाठक)

पति स्व० श्रीमती शिखा पाठक
के०ए०-14/2, कोशाम्बी, गाजियाबाद।

दिनांक 11.3.11

संलग्नक-

- 1- असल चिकित्सीय प्रपत्र ।
- 2- कुल पेज असल बिल 18 (धर्मशिला अस्पताल दिल्ली)
- 3- रैफर आदेश ।

एवं

- 1- असल चिकित्सीय प्रपत्र ।
- 2- कुल पेज असल बिल 224(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली)
- 3- रैफर आदेश ।

90377 14.5.2011
Secretary, District Medical Officer, Meerut
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण - मेरठ मण्डल, मेरठ।
(Signature)

Reg: 90

18

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
Mobile: 91-9958999737, 9868262260, Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To, 06.05.2011
Addl. Director
Medical, health and family welfare
Meerut Division, Meerut

Through,
The District Judge, Ghaziabad

Reference: Your letter no. 2140/12/ chiki. Vyay pratipurti/2011
Section- 12 Meerut, dated 15.4.2011

Dear Sir,

In reply to the objections mentioned in the abovementioned letter, find enclosed hereunder the following documents desired by you;

1. Original discharge summary from Dharamshila Hospital for the period 5.6.2010 to 8.6.2010
2. Original discharge summary from AIIMS for the period 8.6.2010 to 1.9.2010.
3. The original bills corresponding to the receipts as below
 - i. Bill dated 1.9.10 generated at the time of discharge mentions the advance payment of Rs. 18,000/- vide receipt no. 299735 dated 8.6.2010.
 - ii. Bill dated 29.06.10 for payment of Rs. 46980/- vide receipt no. 301037 dated 29.06.2010.
 - iii. Bill dated 20.07.10 for payment of Rs. 47365/- vide receipt no. 302867 dated 20.07.2010.
 - iv. Bill dated 03.08.2010 for payment of Rs. 26564/- vide receipt no. 303829 dated 03.08.2010. The amount paid i.e. Rs. 26564/- is mentioned in the circle.
 - v. Bill dated 26.08.2010 for payment of Rs. 40876/- vide receipt no. 305675 dated 26.08.2010.

Thus, all the documents required by you are annexed hereunder in original. The Original bills are also attached. Kindly consider this matter sympathetically and expedite the reimbursement.

Kindly acknowledge receipt.

Regards


Sanjai Kumar Pathak

Recd.

18.05-11

From,

Sanjai Kumar Pathak
 H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM-VIIth, Ghaziabad
 KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
 Mobile: 91-9958999737, 9868262260
 Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,

**Hon'ble the Chief justice
 High Court of Judicature at Allahabad**

30.10.2012

Subject: Medical bill reimbursement of my wife Late Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad.

Most Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VII, Ghaziabad was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) since December 2006. She died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment.

She was hospitalised for the treatment in the years 2007, 2010 and 2011. All the medical bills of late Shikha Pathak, in original, have already been submitted and duly acknowledged. The amount of bills and the sanction granted so far are given below;

Year 2007

1.	BILL AMOUNT 6,88,901/-	Amt. SANCTIONED Rs. 5,52,471/-	/
2.	BILL AMOUNT 1,91,133/-	Amt. SANCTIONED Rs. 1,46,610/-	/
3.	BILL AMOUNT 1,20,799/-	Amt. SANCTIONED Rs. 79,778/-	/
4.	BILL AMOUNT 23,816/-	Amt. SANCTIONED Rs. 17,846/-	/

YEAR 2010

5.	BILL AMOUNT Rs. 8,18,237/-	Amt. SANCTIONED Rs. 7,46,673/-	/
----	----------------------------	--------------------------------	---

YEAR 2011

6.	BILL AMOUNT Rs. 5,67,307/-	No information so far	
----	----------------------------	-----------------------	--

Till date even the sanctioned amount has not been disbursed.

I am constrained to write to you in view of the casual approach of the concerned officers. Instead of informing the current status of reimbursement or taking steps for disbursement of sanctioned amount, the Registrar (M) has simply attached a copy of sanction letter dated 14.05.2012 which I had submitted for his consideration. The copy of letter with annexures sent by me and its reply by the Registrar is annexed herewith.

The sum total of the reimbursement claim is Rs. 24,10,193/-, and an amount of Rs. 9 lakhs has to be deducted therefrom which was paid to Smt. Shikha Pathak in 2007 as medical advance. Thus, the balance amount of approx. Rs. 15,10,193/- (fifteen lakhs ten thousands one hundred and ninety three) is due to be paid to me.

I have neither been communicated nor could I see any reason for this inordinate delay in reimbursement.

Kindly look into the matter and expedite.

Kindly acknowledge receipt.

Regards

Sanjai Kumar Pathak

Ref: 90

21

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad

To,
Sri V.C. Gupta
Hon'ble the District Judge, Ghaziabad

30.04.2011

Reference: Letter no. 3705/ IV-3226?Admin-A-1 Sec dated 28.02.2011 by
Joint Registrar(M) High Court of Judicature at Allahabad

Subject: Reimbursement of medical expenses

Respected Sir,

You are aware that Mrs. Shikha Pathak, ACJM-VII, Ghaziabad left for heavenly abode on 07.03.2011. The undersigned is husband of Late Shikha Pathak.

With reference to the abovementioned letter, I have to submit that according to G.O. no. 1209/five-6-2004-294/96. T.C. dated 9.8.2004, the verification of the medical claim upto forty thousand rupees is to be done by the Chief Medical Officer and the verification of the medical claim from forty thousand to one lakh rupees is to be done by the Medical Superintendent of the referring Hospital. It is pertinent to mention that late Shikha Pathak had submitted the bills for verification and the bills were sent for verification which is evident from letter no. 331/Ac/D.J./Ghaziabad dated 19.07.2008 by your office, however the bills were returned without verification.

I am also submitting medical bills (OPD) amounting to Rs. 8940/- in original for reimbursement because the same process of refund shall be applicable.

I am submitting the original bills with this letter with a request to take appropriate steps of verification of bills at your level and thereafter send the bills for payment.

Kindly acknowledge receipt and expedite the matter.

Regards

Sanjai Kumar Pathak
Contact no. 9868262260

Ref: 90

22

From,

Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIith, Ghaziabad
Address: I-401, Vivek Vihar, Sector-82
NOIDA-201305

To,**Hon'ble the District and Session Judge,
Ghaziabad****28.03.2013****Subject: CHANGE OF ADDRESS**

Urgent

Respected Sir,

The reimbursement of medical bills of my wife late Shikha Pathak, the then ACJM-VII Ghaziabad are pending since 2011.

Kindly take notice that I am shifting my residence from existing KA-14, SF, Kaushambi, Ghaziabad to the following address:

I-401, VIVEK VIHAR, SECTOR-82, NOIDA-201305

You are, therefore, requested to update my new address in your records for all future correspondences.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Regards

Sanjai Kumar Pathak
Contact no . 9958999737

Rm:90

6

23

From,

Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
Address: I-401, Vivek Vihar, Sector-82
NOIDA-201305

To,

**The Registrar General
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad, U.P.**

28.03.2013

Subject: CHANGE OF ADDRESS

Urgent

Respected Sir,

The reimbursement of medical bills of my wife late Shikha Pathak, the then ACJM-VII Ghaziabad are pending since 2011.

Kindly take notice that I am shifting my residence from existing KA-14, SF, Kaushambi, Ghaziabad to the following address:

I-401, VIVEK VIHAR, SECTOR-82, NOIDA-201305

You are, therefore, requested to update my new address in your records for all future correspondences.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Regards

Sanjai Kumar Pathak
Contact no . 9958999737

आतिपावाय

अनुभाग- (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति)

विषय- श्री मति शिवा पाठक, हायर चिकित्सा जज

दिनांक 2/1/09 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे

पर प्रतिहस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 530/नेत्वा/डीजे/09 में कहना है कि श्री मति शिवा पाठक, हायर चिकित्सा जज दिनांक 16-2-09 के सन्दर्भ इन्होंने प्रदेश के भीतर ही दिनांक से पीडित थे/थी,

चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति प्राप्त नहीं की थी/है और ना ही/परन्तु मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदेश के भीतर हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त की थी/है। अतः चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 के अन्तर्गत आप अपने स्तर से मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त कराने हेतु अध्यक्ष/सचिव, मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उक्त दावा संदर्भित करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रदेश से बाहर दिनांक 23-4-07 से 8-5-07 तक चिकित्सा

हायपर एंड रिस्च के-एर रि दिवली ने मती होक आप-1 उपचार कराया था।

कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्राप्त नहीं की थी/प्राप्त की है अतः आप अपने स्तर से चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान कराने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त नहीं की है। अतः आप अपने स्तर से उक्त दावा अध्यक्ष/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु संदर्भित करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा अनुमति/कार्योत्तर अनुमति/राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्रदान किए जाने की दशा में शासन के प्रतिबन्धों के आधीन प्राप्त दावा रुपये 1,20,799.00 (शब्दों में एक लाख बीस हजार सात सौ अक्षर) को चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-2428/5-7-97/294/1996 दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 1209/पाँच-6-2004-294/96 टी0सी0 दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त रुपये 7,97,78.00 (शब्दों में उड़्यासी लाख सात सौ अक्षर) देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित की जाती है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित है। सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप अपने विभागाध्यक्ष से/शासन के प्रशासनिक विभाग से आपेक्षित स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

संलग्न-यथोपरि।

मूलदावा

अपर निदेशक

छांकन संख्या- /12/चिकि0 व्यय प्रतिपूर्ति/ तिलिपि- श्री मति शिवा पाठक कपट जिला जज

/200 -200 तददिनांक (जू० ३०) कोर्ट ले-1

आतिपावाय को प्रमाण

अपर निदेशक

Smt. Shikha... C.No. 622

Handwritten mark

Handwritten text at bottom left

Handwritten text at bottom center

प्रेषक,

पत्र संख्या- 201/90

/12/चिकि० व्यय प्रतिपूर्ति/ 8 /2008 -2009

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
मेरठ मण्डल मेरठ।

25

सेवा में,

जनपद-पापनवासा
शासितपालिका

अनुभाग- (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति)

विषय- श्री माता विद्या पाठक, उपर पीकिल जज

दिनांक 2/4/09

के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे

पर प्रतिहस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 530/लेटर/डीजे/09 दिनांक 16-2-09 के सन्दर्भ में कहना है कि श्री माता विद्या पाठक, कषार रोग से पीड़ित थी, इन्होंने प्रदेश के भीतर ही दिनांक

तथा इन्होंने किसी राजकीय चिकित्सालय से हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति प्राप्त नहीं की थी/है ओर न ही/परन्तु मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदेश के भीतर हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त की थी/है। अतः चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 के अन्तर्गत आप अपने स्तर से मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त कराने हेतु अध्यक्ष/सचिव, मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उक्त दावा संदर्भित करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रदेश से बाहर दिनांक 23-4-07 एा 8-5-07 तक चिकित्सा

हासिल एा रिस्के लेटर से दिनांक से गति होना आप

उपचार कराने का मैं अपना उपचार कराया था/है। इन्होंने प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्राप्त नहीं की थी/प्राप्त की है अतः आप अपने स्तर से चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान कराने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त नहीं की है। अतः आप अपने स्तर से उक्त दावा अध्यक्ष/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु संदर्भित करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा अनुमति/कार्योत्तर अनुमति/राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्रदान किए जाने की दशा में शासन के प्रतिबन्धों के आधीन प्राप्त दावा रूपये 120739-00 (शब्दों में एक लाख बीस हजार सात सौ अठ्ठावन मात्र एा) को चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-2428/5-7-97/294/1996 दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 1209/पाँच-6-2004-294/96 टी०सी० दिनांक 9.08.2004 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त रूपये 79778-00 (शब्दों में अठ्ठावन हजार सात सौ अठ्ठावन मात्र एा) देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित की जाती है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित है।

सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप अपने विभागाध्यक्ष से/शासन के प्रशासनिक विभाग से आपेक्षित स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

संलग्न-यथोपरि।

मूलदावा

अपर निदेशक

पृष्ठांकन संख्या- 10/8 /12/चिकि० व्यय प्रतिपूर्ति/ /200 -200 तददिनांक
प्रतिलिपि- श्री माता विद्या पाठक कषार रोग जज (ज० डी) को दे. 1

200-90

पत्र संख्या-

/12/चिकि०व्यय प्रतिपूर्ति/204/200 -200

26

प्रेषक,

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
मेरठ मण्डल मेरठ।

#

सेवा में,

जयप्रकाश सागरा चौधरी
शांति नगर

अनुभाग- (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति) दिनांक 20-6-2011
विषय- श्रीमती सागरा चौधरी जी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे
पर प्रतिहस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1838 I दिनांक 18-5-11 के सन्दर्भ में कहना है कि श्रीमती सागरा चौधरी केसर राव से पीड़ित थे/थी, इन्होंने प्रदेश के भीतर ही दिनांक

तथा इन्होंने किसी राजकीय चिकित्सालय से हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति प्राप्त नहीं की थी/है और ना ही/परन्तु मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदेश के भीतर हायर चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त की थी/है। अतः चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 के अन्तर्गत आप अपने स्तर से मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त कराने हेतु अध्यक्ष/सचिव, मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उक्त दावा संदर्भित करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रदेश से बाहर दिनांक 5-6-2011 से 8-6-2011 तक एमिग्राण्ट-होस्पिटल में दिनांक 9-6-2011 से 1-9-2011 तक एमएलए के अतिरिक्त से भीतर ही दावा

हैं अपना उपचार कराया था/है। इन्होंने प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्राप्त नहीं की थी/प्राप्त की है अतः आप अपने स्तर से चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश से बाहर उपचार कराने की शासन की अनुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान कराने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त इन्होंने राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त नहीं की है। अतः आप अपने स्तर से उक्त दावा अध्यक्ष/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद की कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करने हेतु संदर्भित करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा अनुमति/कार्योत्तर अनुमति/राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति/कार्योत्तर संस्तुति प्रदान किए जाने की दशा में शासन के प्रतिबन्धों के आधीन प्राप्त दावा रूपये 859415=00 (शब्दों में आठ लाख अठारह हजार पाँच सौ पचास रुपये मात्र) को चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-2428/5-7-97/294/1998 दिनांक 23.07.1997 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 1209/पाँच-6-2004-294/96 टी0सी0 दिनांक 9.08.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त रूपये 818237=00 (शब्दों में आठ लाख अठारह हजार तीन सौ अठान्नास रुपये मात्र) देय धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित की जाती है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित है।

सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप अपने विभागाध्यक्ष से/शासन के प्रशासनिक विभाग से आपेक्षित स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

संलग्न-यथोपरि
मूलका

अपर निदेशक
चि० स्वा० एवं ए० क०
मेरठ मण्डल मेरठ

प्रेषक,

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 8-9-अम्स्त, 2011

विषय:- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय-धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0-3702/चार-3226/एडमिन-ए-1-सेक दिनांक 28.2.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश सं0-1209/पॉच-6-2004/96 टी.सी. दिनांक 9.8.2004 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर धर्मशीला कैंन्सर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, देहली में दिनांक 28.12.2006 से 07.2.2007 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0 5,52,471/- (रू0 पांच लाख बावन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-728/दो-4-08-53 (4)/07 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू0 9,00,000=00 (रू0 नौ लाख मात्र) के सापेक्ष समायोजित की जायेगी।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा अग्रिम के अतिरिक्त कोई और अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम की वसूली श्रीमती शिखा पाठक से कर ली जाय। प्रश्नगत बिल वाउचर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश-49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2)1171/X/11 दिनांक-16.8.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या-511(1)/दो-4-2011-53(4)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(डा0 सुनील कुमार)
अनु सचिव

(N)

208-90

पंजीकृत

संख्या-3344/दो-4-2011-53(4)/2007

28

प्रेषक

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

6.12

4-12

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2012

विषय:- स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (एम) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-19607/चार-3226/एडमिन (ए-1) सेक दिनांक 23.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08.6.2010 से 01.9.2010 तक कराई गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू०= 7,46,673=00 (रू० सात लाख छियालिस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति ब्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-728/दो-4-08-53(4)/2007 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू०= 9,00,000=00 (रू० नौ लाख मात्र) में से शासनादेश संख्या-511/दो-4-2011 53(4)/2007 दिनांक 8.9.2011 द्वारा रू० 5,52,471/- का समायोजन किया जा चुका है। अतः अव अवशेष अग्रिम रू०= 3,47,529/- का समायोजन उक्त स्वीकृति में से करते हुए अवशेष धनराशि रू० 3,99,144/- (रू० तीन लाख निम्नानबे हजार एक सौ चवालिस मात्र) का भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो। यदि कोई अन्य चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो तो उसका भी समायोजन कर लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस धनराशि का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-09 पारिवारिक न्यायालय-49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2) 410/X/12 दिनांक 01.5.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

Car

5.12.11

Reg. 90

From,
S.S.Gautam
Deputy Registrar(M)
High Court of Judicature At
Allahabad.

To,
The District Judge,
Ghaziabad.

Subject : Medical reimbursement claim of Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM,
Ghaziabad.

No. 11168 / IV-3226 / Admin A-1 Section

/ Dated : 07-08-2014
July, 2014

Sir,

While enclosing a copy of letter dated 09.04.2014 and 25.03.2012 of Sri Sanjai Kumar Pathak, H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad along with its enclosure, on the above subject, I have to say that as per the information received from Sri Pathak, the matter regarding several payments of medical reimbursement claim is still pending, for payment or necessary sanction.

I am therefore to request you kindly to inform the current status with regard to the payments against several M.R.C. of Late Smt. Shikha Pathak or necessary sanction. The matter may please be treated as most urgent.

Encl. As above

Your's Faithfully

- * 1. Copy of letter dated 09.04.2014 of Sri Sanjai Kumar Pathak, along with its enclosure.
- ⊗ 2. Copy of letter dated 25.03.2012 of Sri Sanjai Kumar Pathak,

S.S.Gautam
30.7.14
Deputy Registrar(M)

168 No. 11169 / IV-3226 / Admin A-1 Section

/ Dated : 07-08-2014
July, 2014

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Sanjai Kumar Pathak H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad, R/o I-401, Vivek Vihar, Sector-82, Noida - 201304 with the information that till date M.R.C. of Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM, amounting to Rs. 05,67,307.00 has not been received in the office of the Court.

S.S.Gautam
30.7.14
Deputy Registrar(M)

S.O. Admin A-1 Sec / D.R.(M)

May like to see letter dated 09.04.2014 of Sri S.K.Pathak H/o - Late Smt. Shikha Pathak, ex ACJM and the report dated 22.07.2014 on it of section officer Admin A-H and may like to issue?

S.S.Gautam
30.07.2014

S.S.Gautam
30/07/14

* at Flag X, 167
⊗ at Flag Y

17

Sanjal
12-5-14
Encl-2 page

Reg: 30
12.5.14

326
3226/14

(711)

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
I-401, Vivek Vihar, Sector-82, NOIDA-201304
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

14/5/14
14-5-14

To,
Hon'ble the Chief Justice
High Court of Judicature at Allahabad

09.04.2014

22-7-14

Subject: Inordinate delay in medical bill Re imbursement.

Most Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak was posted as ACJM-VII, Ghaziabad when she died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment of Blood Cancer.

She was hospitalised for treatment in the year 2007, 2010 and 2011 and the original bills alongwith the required documents for 2007 and 2010 were duly submitted by late Shikha Pathak. I personally submitted the medical bills for 2011 and necessary documents in the office of District Judge, Ghaziabad in 2011 itself.


However despite reminders the medical reimbursement has not been made so far. I had personally submitted a letter dated 31.10.2012 in the office of the Hon'ble Chief Justice on 31.10.2012 a copy whereof is attached herewith. I have personally visited the office of District Judge, Ghaziabad on several occasions.

13/4
S.O. Admin A

May I request your lordship to look into the matter and issue necessary directions to expedite the reimbursement in a time bound manner.

D.R.M.
09-5-14

Regards


Sanjai Kumar Pathak


Registrar (R)

D.R.C.M)


R.G.
30/5/14

14 Rego
8-5-14

S.O. Admin A

S.O. Admin A

15/5/14

The letter dated 28/4/11 of Sh. S.K. Pathak husband of late Shikha Pathak M.R.C amounting to Rs 5,67,207/- has not been received as yet.

Sh. S.K.P.

23/07/14

22-7-14
22-7-14

Page 90

~~S.O. Admitt~~
~~Kindly~~
D.R. (14)

May kindly see the instant letter of Sri Sanjay K. Pathak husband of Late Shikha Pathak in which he stated that the M.R.C amounting to Rs 5,67,307/- has yet not been dealt.

In this connection it is submitted that earlier Sri Pathak through his letter dated 10.9.12 had informed that he had submitted through his letter dated 28.4.11 but the same is not found in this file.

~~If approved the S.O. Admitt may be directed to place the letter dated 28.4.11 along with encl, if any, (in misc. file & leave file) S.O. Admitt may be informed that some correspondence had been made at that time in leave file.~~

~~(S.O. Admitt)~~

If approved, the S.O. Admitt may be directed to resubmit the serial along with letter dated 28.4.11 of Sri S.K. Pathak husband of Late Shikha Pathak along with M.R.C. amounting to Rs. 5,67,307/- along with specific report in this matter.

~~(S.O. Admitt)~~
17.5.14

~~(S.O. Admitt)~~
17.5.14

~~(S.O. Admitt)~~
17-5-14
AR

'A' approved
17/5

Ref-90

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

Sri Sanjai Kumar Pathak,
H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex-ACJM
R/o I- 401, Vivek Vihar, Sector-82,
Noida-201305

160

No. 9127 /IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated: 09-7-2013

Subject: Reimbursement of medical expenses of Late Smt. Shikha Pathak, Ex-
Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir,

In continuation of Court's letter dated 19.10.2012 on the above subject ^{I have} ~~is~~ to inform you that the copy of Government letter no.3344/II-4-2011-53(4)/2007, dated 14.05.2012 ^{copy} ~~which~~ was addressed to the District Judge, Ghaziabad and forwarded to ^{the} ~~this~~ Court had been sent you through aforesaid Court's letter for information and necessary action.

Encl: As above

Yours Faithfully

Maharanda
Deputy Registrar
4-7-13

No. 9128 /IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated: 09-7-2013
Copy forwarded to the District Judge, Ghaziabad for information and necessary action.

Maharanda
Deputy Registrar
4-7-13

D.R.M)
if approved
may issue?

04.7.13

04/07/13

161
04-07-13
AR

sp9446
11-4-13

Sanjal
12-4-13
CO-0-Ford

Reg: 08 6

15-4-13

From,
Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, the then ACJM-VIIth, Ghaziabad
Address: I-401, Vivek Vihar, Sector-82
NOIDA-201305

(462)

24-4-13
S 236
Regist No. ...
3225
157

To,
The Registrar General
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad, U.P.

28.03.2013

23/4/13

Subject: CHANGE OF ADDRESS

Urgent

1-4-13

Respected Sir,

The reimbursement of medical bills of my wife late Shikha Pathak, the then ACJM-VII Ghaziabad are pending since 2011.


Kindly take notice that I am shifting my residence from existing KA-14, SF, Kaushambi, Ghaziabad to the following address:

I-401, VIVEK VIHAR, SECTOR-82, NOIDA-201305

You are, therefore, requested to update my new address in your records for all future correspondences.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Regards


Sanjai Kumar Pathak
Contact no . 9958999737

Smt. Anita
B Coor
02107113

1099
So. Adm N/A

DR (M)
DWB

(7)
JRM
(CO-0-E)

Saxena
7-11-12
Encl-9

17
7-11-12
11/11/12

107 322/6
148
Rear: 90
9/11/12
8-11-12
1-7-13

19

From,

Sanjai Kumar Pathak
r/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
Mobile: 91-9958999737, 9868262260
Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,
Hon'ble the Chief justice
High Court of Judicature at Allahabad

30.10.2012

Subject: Medical bill reimbursement of my wife Late Shikha Pathak, the then ACJM, Ghaziabad.

Most Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VII, Ghaziabad was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) since December 2006. She died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment.

She was hospitalised for the treatment in the years 2007, 2010 and 2011. All the medical bills of late Shikha Pathak, in original, have already been submitted and duly acknowledged. The amount of bills and the sanction granted so far are given below;

3836
Sachin M/A

Year 2007

1.	BILL AMOUNT 6,88,901/-	Amt. SANCTIONED Rs. 5,52,471/-
2.	BILL AMOUNT 1,91,133/-	Amt. SANCTIONED Rs. 1,46,610/-
3.	BILL AMOUNT 1,20,799/-	Amt. SANCTIONED Rs. 79,778/-
4.	BILL AMOUNT 23,816/-	Amt. SANCTIONED Rs. 17,846/-

Sharma
D.R.M.
07/11/12

YEAR 2010

5.	BILL AMOUNT Rs. 8,18,237/-	Amt. SANCTIONED Rs. 7,46,673/-
----	----------------------------	--------------------------------

Regd (B)

YEAR 2011

6.	BILL AMOUNT Rs. 5,67,307/-	No information so far
----	----------------------------	-----------------------

R.A.
3/11/12

Till date even the sanctioned amount has not been disbursed.

Registrar General
Submitted
P. P. S.
Date: 31.10

D.R.(M)
Regd
6/11/12

Sharma

Sri Anant H
Rajwade
11/11/12

D.R.M)

Action has already been taken
vide Court's letter dated 19.10.12.
May await for further correspondence.

Account
20.11.12

D.R.M
20/11/12

Account →
M

21-11-12
D.R.M)

Account
20-11-12
RR

Account
20-11-12

RR

I am constrained to write to you in view of the casual approach of the concerned officers. Instead of informing the current status of reimbursement or taking steps for disbursement of sanctioned amount, the Registrar (M) has simply attached a copy of sanction letter dated 14.05.2012 which I had submitted for his consideration. The copy of letter with annexures sent by me and its reply by the Registrar is annexed herewith.

The sum total of the reimbursement claim is Rs. 24,10,193/-, and an amount of Rs. 9 lakhs has to be deducted therefrom which was paid to Smt. Shikha Pathak in 2007 as medical advance. Thus, the balance amount of approx. Rs. 15,10,193/- (fifteen lakhs ten thousands one hundred and ninety three) is due to be paid to me.

I have neither been communicated nor could I see any reason for this inordinate delay in reimbursement.

Kindly look into the matter and expedite.

Kindly acknowledge receipt.

Regards



Sanjai Kumar Pathak

Red. Byhand
on 21.10.

Ref: 90

O/C
From,

Sanjai Kumar Pathak

H/o Late Smt. Shikha Pathak, ExACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad

To,

Hon'ble the District Judge, Ghaziabad**BY POST**

Reference: My letter dated 30.04.2011/hand delivered

dated **10.09.2012****Subject:** Arrears of salary, earned leave and medical leave encashment

Respected Sir,

Kindly take reference to the above referred letter.

Vide the above referred letter, a request was made for the payment of arrears of salary, earned leave encashment and medical leave encashment due to my Late wife Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM, Ghaziabad. However, I have not received any information so far.

Kindly acknowledge receipt and expedite the matter.

Regards


Sanjai Kumar Pathak

Contact no. 9958999737

Encl: copy of letter dated 30.04.2011

CC: Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad.

Ref-90

From,

Sanjai Kumar Pathak
 H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM-VIIth, Ghaziabad
 KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
 Mobile: 91-9958999737, 9868262260
 Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,

Sri Maharani Din
Deputy Registrar (M)
High Court of Judicature at Allahabad

10.09.2012

Subject: Medical bill reimbursement of Late Shikha Pathak.

Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VII, Ghaziabad was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) since December 2006 and died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment.

She was hospitalised for the treatment in the years 2007, 2010 and 2011. All the medical bills during hospitalization, in original, have already been submitted and duly acknowledged. The details whereof are given below;

Year 2007

- | | | |
|----|------------------------|----------------------------------|
| 1. | BILL AMOUNT 6,88,901/- | AMOUNT SANCTIONED Rs. 5,52,471/- |
| 2. | BILL AMOUNT 1,91,133/- | AMOUNT SANCTIONED Rs. 1,46,610/- |
| 3. | BILL AMOUNT 1,20,799/- | AMOUNT SANCTIONED Rs. 79,778/- |
| 4. | BILL AMOUNT 23,816/- | AMOUNT SANCTIONED Rs. 17,846/- |

YEAR 2010

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 5. | BILL AMOUNT Rs. 8,18,237/- | AMOUNT SANCTIONED Rs. 7,46,673/- |
|----|----------------------------|----------------------------------|

YEAR 2011

- | | |
|----|----------------------------|
| 6. | BILL AMOUNT Rs. 5,67,307/- |
|----|----------------------------|

Till date according to information received by me, sanction for reimbursement of Rs. 5,52,471 (serial no. 1) has been granted vide letter dated 08.09.2011.

Ref. 90

Sanction for reimbursement of Rs. 7,46,673/- (serial no. 5) has been granted vide letter dated 14.05.2012. I have no other intimation. Since late Shikha Pathak had been given an advance of Rs. 9 lakhs, therefore, the amount of advance has to be adjusted against the total reimbursement to be made. However, I have not received any reimbursement so far.

Against a total reimbursement claim of Rs. 24,10,193/- , an amount of Rs. 15,43,378/- has been sanctioned so far and I am not aware about the status of reimbursement of Rs. 5,67,307/- (serial no.6).

It is, therefore, after adjustment of advance of Rs. 9,00,000/- an amount of Rs. 6,43,378/- already sanctioned and Rs. 5,67,307/- for the treatment in 2011 needs to be reimbursed expeditiously.

Kindly look into the matter and expedite.

Kindly acknowledge receipt.

Regards



Sanjay Kumar Pathak

H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VIith, Ghaziabad

CC: 1. The District Judge, Ghaziabad

✓ 2. Under Secretary, Appointment Section-IV, Govt. of U.P., Lucknow

Ref-90

dc

From
Shikha Pathak
Addl Chief Judicial Magistrate -7, Ghaziabad
Admitted in AIIMS since 8th June 2010 for treatment of BLOOD CANCER

29-Jul-10

TO
Shri Surendra Bahadur
Joint Registrar (M)
High Court of Judicature at Allahabad

URGENT

Through
The District Judge
Ghaziabad.

Through special messenger

No. 17 Dated Ghaziabad.

Sub: Re-submission of medical reimbursement claim
Ref: Your letter No. 11271/IV-3226/Admin-A 1 Sec dated 20-7-2010

Respected Sir:

Kindly take reference of your above letter. As directed by you I am re-submitting my Original medical bills for the treatment undergone by me for Blood Cancer in 2007. The following is the detail of all the bills being re-submitted by me:

1. Original Bill amounting to Rs 5,52,471/- Rupees five lakhs fifty two thousand four hundred seventy one (actual amount Rs 688901/-)
2. Original Bill amounting to Rs 1,46,610/- (rupees one lakh forty six thousand six hundred ten) (actual amounting to Rs 1,91,133/-)
3. Original Bill amounting to Rs 79,778/- (rupees seventy nine thousand seven hundred seventy eight) (actual bill amounting to rupees 1,20,799/-)
4. Original Bill amounting to Rs 17,846 (seventeen thousand eight hundred forty six) (actual amounting to Rs 23,816/-)

You are humbly and earnestly requested to do the needful.

Yours faithfully,

Shikha Pathak
Shikha

Cc: Under Secretary, Appointment Section-4, Lucknow.

No. 2529/I Dt. 31.7.2010

Forwarded to the Under Secretary
Appointment Section-4, Lucknow

District Judge
Ghaziabad

प्रेषक,

10/10 -

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Rec. 90

संख्या में,

जिला न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

10-10-11

31/10/11

4/10/11

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 8-9 अक्टूबर- 2011

विषय- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0-3702/चार-3226/एडमिन-ए-1-सेक दिनांक 28.2.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश सं0-1209/पाँच-6-2004/96 टी.सी. दिनांक 9.8.2004 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर धर्मशीला कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, देहली में दिनांक 28.12.2006 से 07.2.2007 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0 5,52,471/- (रू0 पांच लाख बावन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स भूलरूप में संलग्न हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के कार्यालय झाप सं0-728/दो-4-08-53 (4)/07 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू0 9,00,000=00 (रू0 नौ लाख मात्र) के सापेक्ष समायोजित की जायेगी।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा अग्रिम के अतिरिक्त कोई और अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम की बसूली श्रीमती शिखा पाठक से कर ली जाय। प्रश्नगत बिल वाउचर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आभोजनेत्तर-10-सिविल और सेशन न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश 149 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2)1171/X/11 दिनांक-16.8.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या-511(1)/दो-4-2011-53(4)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।

4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

5- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद।

गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(डा0 सुनील कुमार)
अनु सचिव

123 SEP 2011

207-90

इ0 पंजीकृत

संख्या-3344/दो-4-2011-53(4)/2007

0/4 प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2012

विषय:- स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (एम) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-19607/चार-3226/एडमिन (ए-1) सेक दिनांक 23.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08.6.2010 से 01.9.2010 तक कराई गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0= 7,46,673=00 (रू0 सात लाख छियालिस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-728/दो-4-08-53(4)/2007 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू0= 9,00,000=00 (रू0 नौ लाख मात्र) में से शासनादेश संख्या-511/दो-4-2011 53(4)/2007 दिनांक 8.9.2011 द्वारा रू0 5,52,471/- का समायोजन किया जा चुका है। अतः अव अवशेष अग्रिम रू0= 3,47,529/- का समायोजन उक्त स्वीकृति में से करते हुए अवशेष धनराशि रू0 3,99,144/- (रू0 तीन लाख निन्यानबे हजार एक सौ चवालिस मात्र) का भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो। यदि कोई अन्य चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो तो उसका भी समायोजन कर लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस धनराशि का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-09 पारिवारिक न्यायालय-49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2) 410/X/12 दिनांक 01.5.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।


Ref: 90

-2-

संख्या-3344(1)/दो-4-2011-53(4)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- क्लेराधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्री संजय कुमार पाठक, पति स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-आर०ओ०के०ए०-14 कौशाम्बी गाजियाबाद।
- 6- गार्ड बुक।


(सुधीन्द्र कुमार)
अनु सचिव,
९

Ref 90

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

Sri Sanjai Kumar Pathak,
H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex-ACJM
R/o KA-14, Kaushambi,
Ghaziabad.

No. 16431 /IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated: 19-10-2012

Subject: Reimbursement of medical expenses of Late Smt. Shikha Pathak, Ex-
Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir,

With reference to your letter dated 10.09.2012 on the above subject I am
sending herewith a copy of Government letter no.3344/II-4-2011-53(4)/2007, dated
14.05.2012 which is addressed to the District Judge, Ghaziabad and forwarded to this
Court, for information and necessary action.

Encl: As above

Yours Faithfully
Maharandi
18/10/12
Deputy Registrar

No. /IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated:

Copy forwarded to the District Judge, Ghaziabad for information and necessary action.

Deputy Registrar

Ref-90

पंजीकृत

संख्या-3344/दो-4-2011-53(4)/2007

प्रेषक

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

6/12

4-12

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2012

विषय:- स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (एम) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-19607/चार-3226/एडमिन (ए-1) सेक दिनांक 23.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08.6.2010 से 01.9.2010 तक कराई गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0= 7,46,673=00 (रू0 सात लाख छियालिस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-728/दो-4-08-53(4)/2007 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू0= 9,00,000=00 (रू0 नौ लाख मात्र) मे से शासनादेश संख्या-511/दो-4-2011 53(4)/2007 दिनांक 8.9.2011 द्वारा रू0 5,52,471/- का समायोजन किया जा चुका है। अतः अव अवशेष अग्रिम रू0= 3,47,529/- का समायोजन उक्त स्वीकृति में से करते हुए अवशेष धनराशि रू0 3,99,144/- (रू0 तीन लाख निन्धानवे हजार एक सौ चवालिस मात्र) का भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो। यदि कोई अन्य चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो तो उसका भी समायोजन कर लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस धनराशि का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत 'लैखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-09 पारिवारिक न्यायालय-49 चिकित्सा व्यय' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2) 410/X/12 दिनांक 01.5.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

av
S. H. K.

भवदीय,
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

- 1 10

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

Sri Sanjai Kumar Pathak,
H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex-ACJM
R/o KA-14, Kaushambi,
Ghaziabad.

No. ¹⁴⁶16432/IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated: 19-10-2012

Subject: Reimbursement of medical expenses of Late Smt. Shikha Pathak, Ex-Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir,

With reference to your letter dated 10.09.2012 on the above subject I am sending herewith a copy of Government letter no.3344/II-4-2011-53(4)/2007, dated 14.05.2012 which is addressed to the District Judge, Ghaziabad and forwarded to this Court, for information and necessary action.

Encl: As above

Yours Faithfully
Maharani Din
12/10/12
Deputy Registrar

No. ¹⁴⁷16432/IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated: 19-10-2012

Copy forwarded to the District Judge, Ghaziabad for information and necessary action.

Maharani Din
12/10/12
Deputy Registrar

D.R. (M)
2/2 approved
Magistrate?
11.10.12

11/10/12
11-10-12
RA

19/10

Req. 85
21.9.12
25.9.12

14864
IV 3226
143

Sanjay
21-9-12
Encl-1
e-272353835

From,
Sanjay Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ExACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad

To,
Hon'ble the District Judge, Ghaziabad

26/9/12

24/9/12
4-10-12

BY POST

1471
19-9-2012

Reference: My letter dated 30.04.2011/hand delivered

dated 10.09.2012

Subject: Arrears of salary, earned leave and medical leave encashment

Respected Sir,

3122
AO 2/10
Sr. Admin. M/A

Kindly take reference to the above referred letter.

Vide the above referred letter, a request was made for the payment of arrears of salary, earned leave encashment and medical leave encashment due to my Late wife Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM, Ghaziabad. However, I have not received any information so far.

Kindly acknowledge receipt and expedite the matter.

Regards

Sanjay Kumar Pathak
Contact no. 9958999737

Encl: copy of letter dated 30.04.2011

CC: Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad.

10
JRCM)
with encl
sheet

20 SEP 2012

33
Sri. Sris
BL
27/5/12

Sri Anant ji
B. O. cum
02/10/12

Santia
30-5-12
Total-2 page 31.5.12

Rev: 90

पंजीकृत

संख्या-3344/दो-4-2011-53(4)/2007

30-5-12 प्रेषक

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

3226

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

140

8
01/6/12

8
30-4-12

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2012

विषय:- स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (एम) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-19607/चार-3226/एडमिन (ए-1) सेक दिनांक 23.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08.6.2010 से 01.9.2010 तक कराई गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू०= 7,46,673=00 (रू० सात लाख छियालिस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-728/दो-4-08-53(4)/2007 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू०= 9,00,000=00 (रू० नौ लाख मात्र) मे से शासनादेश संख्या-511/दो-4-2011 53(4)/2007 दिनांक 8.9.2011 द्वारा रू० 5,52,471/- का समायोजन किया जा चुका है। अतः अव अवशेष अग्रिम रू०= 3,47,529/- का समायोजन उक्त स्वीकृति में से करते हुए अवशेष धनराशि रू० 3,99,144/- (रू० तीन लाख निन्यानबे हजार एक सौ चवालिस मात्र) का भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो। यदि कोई अन्य चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो तो उसका भी समायोजन कर लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस धनराशि का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-09 पारिवारिक न्यायालय-49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2) 410/X/12 दिनांक 01.5.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

1782
So. Adm. Hk

29842

19

202 av

50-2nd

Dr. Anant J

D.R.M)

This letter is only for information. May file.

Blum

31/7/12

File No 168-12 DRCM

Anant 01.8.12


Anant 01-08-12

Blum 1/8/12

संख्या-3344(1)/दो-4-2011-53(4)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- ✓ महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्री संजय कुमार पाठक, पति स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-आर०ओ०के०ए०-14 कौशाम्बी गाजियाबाद।
- 6- गार्ड बुक।


(सुधीन्द्र कुमार)
अनु सचिव,
R

Ref-30

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

141 The District Judge,
Ghaziabad.

No. 11085/IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated: 27-7-2012

Subject: Reimbursement of medical expenses amounting to Rs.71,564.00 of Late Smt. Shikha Pathak, Ex- Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad incurred in the treatment of AML M3 (Replased) for the period from 05.06.2011 to 08.06.2011 at Dharmashilla Hospital & Research Center, Delhi.

Sir,

I am directed to send herewith copy of Govt. letter no.899/II-4-2012-53(4)/2007, dated 14.05.2012 alongwith original bill /vouchers and other relevant papers (containing 31 leaves) in respect of medical reimbursement claims of Late Smt. Shikha Pathak, Ex- Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, on the above subject and to say that the aforesaid medical reimbursement claims is less than Rs.1,00,000.00 and under the provisions contained in Medical Attendant Rule-2011. no.2275/V-6-11-1082-87, dated 20.09.2011 the medical reimbursement claims less than Rs.1,00,000.00 is to be sanctioned by the Head of the office as such the medical reimbursement claim, amounting to Rs.71,564.00 of Late Smt. Shikha Pathak may be sanctioned by you in the capacity of Head of the office.

I am therefore to request you kindly to take necessary action at your end in accordance with Medical Attendant Rule-2011 published under Govt. notification no.2275/V-6-11-1082-87, dated 20.09.2011.

Encl: As above (containing 31 leaves)

Yours Faithfully

Maharani Din
Deputy Registrar
17-7-12

142
No. 11086 /IV-3226/Admin-A-1 Sec./Dated: 27-7-2012

Copy forwarded to Sri Sanjay Kumar Pathak husband of Late Smt. Shikha Pathak, Ex- Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad for information and necessary action.

Maharani Din
Deputy Registrar
17-7-12

D.R.(M)
Order dated 5.7.12
of A.R.G. in placed
below. May issue?
11.07.12
12-7-12
AR

Sentat
21-5-12
Encl-(31)

रजिस्टर्ड

संख्या-899/दो-4-2012-53(4)/2007

SPS 808
1129
19-5-12
प्रेषक,
सेवा में,

सुधीन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

22-5-12

21/5/12 210
IV/3226
139

22/5/12

8
23-5-12

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 14 मई 2012

विषय:- स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19607/चार-3226/एडमिन (ए-1) सेक दिनांक 23.12.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु रू0 7,46,673=00 एवं रू0 71,564=00 के दावे शासन को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि रू0 7,46,673=00 की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर से की जा रही है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य दावा रू0 71,564=00 की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से कराने का कष्ट करें। उक्त धनराशि स्वीकृत होने की दशा में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-728/2004-08-53(4)/2007 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू0 9,00,000=00 (रू0 नौ लाख मात्र) के सापेक्ष्य समायोजित की जायेगी। उक्त दावा रू0 71,564=00 समस्त बिल बाउचर्स सहित मूलरूप में वापस किया जा रहा है।

संलग्नक:-यथोपरि (मूलरूप में)

16/5/12
DR (M)
21/5/12

12

DR (M)
10/5/12

11 9 MAY 2012

Sd/ Anant H

DR (M)

22/5/12

भवदीय,
Sd/ Anant H
(सुधीन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

Two Draft Letters

Reg. 90

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

Sri Sanjai Kumar Pathak,
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi,
Ghaziabad.

137

No. 7734 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 19-5-2012

Sub: Reimbursement of medical expenses of Late Smt. Shikha Pathak, Ex-
Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

Sir,

With reference to your letter dated 25.03.2012, on the above subject it is to inform you the medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,52,471.00 had already been sanctioned by the Government through Government order no.511/II-4-2011-53(4)/2007, dated 08.09.2011 (copy enclosed for ready reference) and the medical reimbursement claim, amounting to Rs.8,18,237.00 of Late Smt. Shikha Pathak had been sent to the Government through Court's letter no.19607/ Admin A-1 Sec., dated 23.12.2011 for taking necessary action.

Encl:- As above

Yours Faithfully

Maharani Din
9.5.12

Deputy Registrar

No. 7735 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 19-5-2012

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Under Secretary, Appointment Sec.-4, Government of U.P., Lucknow.
2. The District Judge, Ghaziabad
3. The Deputy Registrar (B), High Court, Allahabad along with copy of G.O. dated 08.09.2011

Maharani Din
Deputy Registrar

9.5.12

*J.R.M.)
27 approved
may issue?*

*Manali
23.4.12*

*B.D.M.
98/4/12*

*Sharma
23.4.12
AR*

138

Sanjai Kumar Pathak

Advocate on record,
Supreme Court of India
Regt No. D/797-A/98

Sarital
3-4-12
W.O. Encl

Ref: 90

Office:

F-12, First Floor, Jangpura Extension
Near Eros Cine Complex, New Delhi-110014
Tel.: 011-24313310 Telefax : 011-24313370
E-mail : pathaklawyer@rediffmail.com

Post No. 110014
 110014
 110014

From,
 Sanjai Kumar Pathak
 H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM-VIIth, Ghaziabad
 KA-14, Kaushambi, Ghaziabad
 Mobile: 91-9958999737, 9868262260
 Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To,
 The Registrar
 Hon'ble High Court of Judicature
 At Allahabad
 POST

25.03.2012

BY SPEED

Subject: Refund of Medical claims and other dues of Late Shikha Pathak, ACJM-VII, Ghaziabad

Respected Sir,

My wife Mrs. Shikha Pathak, ACJM-VII, Ghaziabad who was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment. Late Shikha Pathak is survived by the undersigned and seven year old son Dhruv Pathak who are the only legal heirs of late Shikha Pathak.

I have completed the paper formalities for claim and reimbursements and the original documents/certificates/Bills etc. in my possession have already been supplied in April 2011 vide letters dated 28.04.2011.

i. Bunch consisting of following

Sl. No.	Letter reference	Date	Amount
1.	Med Claim/ SHIKHA - ACJM /OPD Bill-1	28.04.2011	₹ 7561/-
2.	Med Claim/ SHIKHA - ACJM /OPD Bill-2	28.04.2011	₹ 8067/-
3.	Med Claim/ SHIKHA - ACJM /OPD Bill-3	28.04.2011	₹ 6375/-
4.	Med Claim/ SHIKHA - ACJM /OPD Bill-4	28.04.2011	₹ 33849/-
5.	Med Claim/ SHIKHA - ACJM /AIIMS-IRCH	28.04.2011	₹ 511455/-
Total -			₹ 567307/-

AND

Sarita
DR (M)
10/4/12

6.4.12

Sanjai Kumar Pathak

Advocate on record,
Supreme Court of India
Reg# No. D/792-A/98

Ref-90

Office :

F-12, First Floor, Jangpura Extension
Near Eros Cine Complex, New Delhi-110014
Tel. : 011-24313310 Telefax : 011-24313370
E-mail : pathaklawyer@rediffmail.com

- ii. original bills amounting to ₹ 7561/-(total pages 18).
- iii. original bills amounting to ₹ 8067/-(total pages 14).
- iv. original bills amounting to ₹ 6375/-(total pages 8).
- v. original bills amounting to ₹ 33849/-(total pages upto 17B)
- vi. original bills amounting to ₹ 5,11,455/-(total pages 165)
- vii. Vide letter dated 30.04.2011, arrears of salary, earned leave encashment and medical leave encashment due to her.

Sir, even the reimbursement of her earlier medical bills has also not been settled so far. The then District Judge Sri V.C. Gupta was kind enough to put everything under process immediately and he extended full co-operation. But after his transfer from Ghaziabad, I have not heard anything from the departments concerned regarding reimbursement and payment of dues.

I, therefore, request you to kindly look into the matter on priority basis and expedite the complete payment of dues and reimbursement of medical bills of late Shikha Pathak.

Regards


Sanjai Kumar Pathak

9.6.7307

Ref-90

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Joint Secretary,
Appointment Sec.-4,
Government of U.P.,
Lucknow.

134

No. 19607 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 23-12-2011

Sub: Reimbursement of medical expenses, amounting to Rs.8,18,237.00 of Late Smt. Shikha Pathak, Ex- Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, incurred in her treatment of AML-M3 (Relapsed for the period from 05.06.2011 to 08.06.2011 at Dharmashilla Hospital & Research Center, Delhi and from 08.06.2011 to 01.09.2011 at All India Institute of Medical Science, New Delhi.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of letter dated 20.08.2011 of Sri Sanjay Kumar Pathak, husband of Late Shikha Pathak, Ex- Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad alongwith medical reimbursement claim papers (original bill /vouchers and other relevant papers), incurred in the treatment of AML-M3 (Relapsed) of Late Shikha Pathak for the period from 05.06.2011 to 08.06.2011 at Dharmashilla Hospital & Research Center, Delhi and from 08.06.2011 to 01.09.2011 at All India Institute of Medical Science, New Delhi, on the above subject and to request you kindly to obtain the necessary orders. in respect of medical reimbursement claim of Late Shikha Pathak from the Government and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Encl:- As above

Yours Faithfully

Maharani Din

15/12/11

Deputy Registrar

135

No. 19608 /IV-3226/Admin-A-1 Sec.

Dated: 23-12-2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Ghaziabad with reference to his endorsement no.155/ Lekha, dated 26.08.2011.
2. Sri Sanjay Kumar Pathak husband of Late Shikha Pathak, Ex- A.C.J.M., R/o K. A.-14, Kaushambi, Ghaziabad.

Maharani Din

15/12/11

Deputy Registrar

D.R. (M)
Order dated
05.12.11 of A.R.G. is
placed below.
May issue?
13.12.2011
13/12/11

252 Page
9.9.11
Savthal
13-9-11
Encl-249

14.9.11
1691

Register No. 17382
File No. 17/3226
Serial No. 132

Refr-90

3/15/9/11
8/22-10-11

647
9-9-2011

प्रेषक,
संजय कुमार पाठक
के ए -14 कौशाम्बी,
गाजियाबाद ।
सेवा में,
श्रीमान महा निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।
द्वारा :- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद ।
महोदय,

प्रेषक, स्व० शिखा पाठक ए०सी०जे०एम० सप्तम गाजियाबाद का पति है । स्व० श्रीमती शिखा पाठक का निधन दिनांक 7-3-2011 को रक्त कैंन्सर के उपचार के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हो गया ।

तदोपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दावा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के बाद प्रेषक द्वारा अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ को भेजा गया ।

अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ ने पत्र दिनांकित 30-6-2011 के द्वारा अंकन 8,18,237/- रुपये की धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु इंगित की है ।

सन्दर्भित पत्र समस्त अभिलेख मूल रूप से संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप अपेक्षित स्वीकृति ओर प्रतिपूर्ति व्यय भुगतान दिलाने की कृपा करें ।

सादर ।

भवदीय

2 SEP 2011

दिनांक 20-8-2011

संजय कुमार पाठक
पति स्व० शिखा पाठक

संलग्नक :- यथोपरि मूल दावा ।

Endorsement No. 155/100/Dr. 28-8-11
Forwarded to. श्रीमान महा-निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

District Judge
Ghaziabad

31/8/11

3554
S. A. M. M. A.

12.9.11
DR (M)

9

JRCM

witncal 251 Page
Cone Natthi

प्रेषक,

सं. में,

Santol
24-9-11
10.0 Ford

24.9.11

Ref-90

पंजीकृत
संख्या-511/दो-4-2011-53(4)/2007

416

3226
133

4
11/9/11

8/22/10/11

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

जिला न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 8.9 अगस्त, 2011

विषय:- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0-3702/चार-3226/एडमिन-ए-1-सेक दिनांक 28.2.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश सं0-1209/पाँच-6-2004/96 टी.सी. दिनांक 9.8.2004 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर धर्मशीला कैन्सर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, देहली में दिनांक 28.12.2006 से 07.2.2007 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0 5,52,471/- (रू0 पाँच लाख बावन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-728/दो-4-08-53 (4)/07 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू0 9,00,000=00 (रू0 नौ लाख मात्र) के सापेक्ष समायोजित की जायेगी।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा अग्रिम के अतिरिक्त कोई और अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम की वसूली श्रीमती शिखा पाठक से कर ली जाय। प्रश्नगत बिल वाउचर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आग्नेय-10E-सिविल और सेशन न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश 1-49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2)1171/X/11 दिनांक-16.8.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या-511(1)/दो-4-2011-53(4)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7, गाजियाबाद।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(डा0 सुनील कुमार)
अनु सचिव

23 SEP 2011